

Ref. No.: PSL/2024-25/CS/SE/51 Date: 28th November, 2024

То,	То,
Listing Department	Corporate Relationship Department
National Stock Exchange of India Limited	BSE Limited
Exchange Plaza, 5 th Floor,	P.J. Towers,
Plot No. C/1, G Block,	Dalal Street,
Bandra Kurla Complex,	Mumbai - 400 001
Bandra (E), Mumbai - 400 051	
	Security Code: 540724
Symbol: DIAMONDYD	Security ID: DIAMONDYD

Subject: Intimation under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Ref: Recommendations of the Committee of Independent Directors of the Company on the Open Offer for acquisition of up to 62,98,351 (Sixty Two Lakh Ninety Eight Thousand Three Hundred Fifty One) fully paid-up Equity Shares of face value of ₹ 5/- (Indian Rupees Five) each (the "Equity Shares") of the Company, representing 26.01% of the Voting Share Capital at a price of ₹ 864/- (Indian Rupees Eight Hundred Sixty Four) per Offer Share ("Offer Price") from the public shareholders of the Company, made by Authum Investment & Infrastructure Limited (the "Acquirer") together with Ms. Mahi Madhusudan Kela in her capacity as person acting in concert with the Acquirer ("PAC") pursuant to and in compliance with the requirements of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011

Dear Sir/Madam,

We write to inform you that in accordance with provisions of Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, please find enclosed copy of reasoned recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of the Company on the aforesaid open offer. The recommendations of the IDC has been published today, 28th November, 2024 in the following newspapers (where the Detailed Public Statement of the open offer was published):

Sr. No.	Newspaper	Language Editions	
1.	Financial Express	English National Daily	All editions
2.	Jansatta	Hindi National Daily	All editions
3.	Navshakti	Marathi Regional Daily	Mumbai edition
4.	Peoples Samachar	Hindi Regional Daily	Indore edition

We are also enclosing herewith copy of the IDC recommendations as published in aforesaid Newspapers.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Prataap Snacks Limited

Parag Gupta Company Secretary and Compliance Officer Encl.: As above

Prataap Snacks Limited

CIN: L15311MP2009PLC021746

PRATAAP SNACKS LIMITED CIN: L15311MP2009PLC021746 Registered Office: Khasra No. 378/2, Nemawar Road, Near Makrand House, Palda, Indore, Madhya Pradesh - 452 020, India Tel.: 91-731-2437604/642; E-mail: <u>info@yellowdiamond.in</u> Website: <u>www.yellowdiamond.in</u>

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Prataap Snacks Limited ("Target Company") on the Open Offer (as defined below), made by Authum Investment & Infrastructure Limited (the "Acquirer") together with Ms. Mahi Madhusudan Kela in her capacity as person acting in concert with the Acquirer ("PAC") to the Public Shareholders of the Target Company under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011

1.	Date	11 th November, 2024	
2.	Name of the Target Company	Prataap Snacks Limited	
3.			
4.	Name(s) of the acquirer and PAC	on behalf of the Acquirer and the PAC. Acquirer: Authum Investment & Infrastructure Limited PAC: Mahi Madhusudan Kela	
5.	with the acquirer Name of the Manager to the		
5.	offer	JM Financial Limited 7 th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400025, India Tel. No.: +91 22 6630 3030 Fax No.: +91 22 6630 3330 Email ID: prataapsnacks.openoffer@jmfl.com Website: www.jmfl.com Contact Person: Ms. Prachee Dhuri SEBI Registration Number: INM000010361	

6.	Members of the Committee of Independent Directors	Mr. Chetan Kumar Mathur (DIN: 00437558) - Chairperson Mrs. Venu Vashista (DIN: 09006358) - Member Mr. Bharadwaj Thiruvenkatava Venkatraghavan (DIN: 02918495) - Member
 IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any 		 All the IDC Members are Non - Executive Independent Director on the Board of Directors of the Target Company. None of the IDC Members hold any equity shares or other securities in the Target Company. Other than their position as Independent Director of the
0	Turding in the Equitor	Target Company, the IDC Members have no other contracts or relationships with the Target Company.
8.	Trading in the Equity shares/other securities of the Target Company by IDC Members	 None of the IDC Members have traded in the Equity shares of the Target Company during the: a. 12 (Twelve) months period preceding the date of the PA; and b.period from the date of the PA till the date of this recommendation.
	IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.	 None of the IDC members: a. are directors on the board of the Acquirer; b. holds any equity shares or other securities of the Acquirer; or c. have any contracts/relationship with the Acquirer.
10.	Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	None of the IDC Members have traded in any of the Equity shares or other securities of the Acquirer.
11.	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	Based on the review of the PA, Corrigendum to PA, DPS, and DLOF issued by JM Financial Limited, the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer and PAC, IDC Members believe that the offer is fair and reasonable and in line with SEBI (SAST) Regulations. However, the shareholders are advised to independently evaluate the Offer and make informed decisions about whether or not to offer their shares in the Open Offer.
		Further, IDC Members confirm that the Target Company has not received any complaint from the shareholders regarding the Open Offer process, valuation price or valuation method.
12.	Summary of reasons for recommendation	IDC has evaluated the PA, Corrigendum to PA, DPS and DLOF issued/submitted by JM Financial Limited for and on behalf of the Acquirer and PAC and believe that the Offer Price of ₹. 864/- (Indian Rupees Eight hundred and sixty four) per fully paid-up Equity Shares ("Offer Price") offered by the Acquirers being the highest price amongst the selective criteria is in line with the SEBI (SAST) Regulations and prime facie appears to be fair and reasonable based on an independent valuation certificate dated 9 th November, 2024 issued by M/s. Ritesh Gupta &

	 Co., Company Secretaries (Mr. Ritesh Gupta, Proprietor, FCS: 5200, COP: 3764). The Offer price is higher than the volume-weighted average market price of the Target Company's equity shares for a period of 60 trading days immediately preceding the date of the PA as traded on a stock exchange with maximum volume of trading [National Stock Exchange of India Limited (NSE)], i.e. ₹ 860.82/—per Equity Share. Further, the IDC members draw attention to the closing market price of the Equity Shares of the Target Company on NSE as of 11th November 2024, being ₹ 1,055.35/- per Equity Share, which is higher than the Offer Price. Accordingly, the shareholders of the Target Company are advised to independently evaluate the Offer and make informed decisions on whether or not to offer their shares in the Open Offer.
13. Disclosure of voting pattern of the IDC Meeting	The Recommendations were unanimously approved by the IDC members in the Meeting held on 11 th November 2024.
14. Details of Independent Advisors, if any.	M/s. Ritesh Gupta & Co., Company Secretaries
15. Any other matter(s) to be highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations.

For and on behalf of Committee of Independent Directors

of Prataap Snacks Limited

hals

Chetan Kumar Mathur Chairperson of Committee of Independent Directors DIN: 00437558

Place: Indore Date: 11th November, 2024

BSE* **BSE Limited** Registered office: 25th Floor, P J Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001. Tel:+91(022)2272 1233/34 CIN: L67120MH2005PLC155188

PUBLIC NOTICE

This is to inform that pursuant to declaration of ARTHA VRDDHI SECURITIES LIMITED as defaulter as well as expulsion by NSE w.e.f. November 26, 2024, the Exchange has declared ARTHA VRDDHI SECURITIES LIMITED (Clg. No. 3259), a corporate trading member, as defaulter, in terms of the provisions of SEBI Circular No. SEBI/MIRSD/Master Cir-04/2010 dated March 17, 2010 and also expelled the said trading Member in compliance with the requirement of Circular No. F. No. 1/26/SE/91 dated August 12. 1991 issued by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Government of India, w.e.f. November 26, 2024.

Investors having any outstanding claims against the aforesaid member are advised to file their claims with the Exchange, if they so desire, within one year from the date of issue of this notice ("specified period"), and no claims filed after one year will be entertained by the Exchange against the above defaulter member and it shall be deemed that no such claims exist against the above mentioned defaulter member or such claims, if any, shall be deemed to have been waived. The claims filed against the above defaulter member will be dealt as per the norms for eligibility of claims for compensation from Investors Protection Fund to the clients of the defaulter member.

The investors can file their claims against ARTHA VRDDHI SECURITIES LIMITED at the concerned regional Investor Centre of BSE Ltd., the list of which is available or Exchange's website at the following link:

https://www.bseindia.com/static/about/contact_us.aspx

The Investors can also submit their claims alongwith supporting documents on email id claims.defaulter@bseindia.com

The investors are hereby advised to go through the below mentioned Exchange website link for documentation requirement for filing their claim against defaulter member: https://www.bseindia.com/static/investors/Claim_against_Defaulter.aspx

	For BSE Limited
NAME OF CONTRACTOR	Sd/-
Place : Mumbai	Additional General Manager
Date : November 28, 2024	Dept. of Investors Services

E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF FREEWORLD EXPORTS PRIVATE LIMITED (in Liquidation) Registered Office:No 45, First Main Road, Gandhi Nagar, Adyar, Chennai Tamil Nadu-600 020


CIN:U51420TN2004PTC052776

websites.

Members are hereby informed that:

(Sale under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) Notice is hereby given to the public at large for inviting bids for sale of Freeworld Exports Private Limited (In Liquidation) ('Corporate Debtor'), as going concern or sale of the following movable and immovable properties forming part of the Liquidation Estate of Corporate Debtor through e-auction on " as is where is basis", "as is what is basis", "what ever there is basis" and "without recourse basis". Sale will be done by the undersigned through E-Auction service provider M/s National E-Governance Services Ltd (NeSL) (website: https://nbid.nesl.co.in/app/login).

For Lot 1 12:0 For Lot 2 3:30 Last Date and Time for submission Up to Wednesd	December, 2024, 0 pm to 2:00pm		subsequently or cast the vote again. The Board of Directors has appointe Patnaik, Company Secretary in Whole as Scrutinizer for conducting the posta in a fair and transparent manner. The	Mr. Sankar Kumar Patnaik, partner of Patnaik & time Practice having Membership No.: FCS - 5699) ballot voting process (i.e. through e-voting process) Scrutinizer's decision on the validity of the vote cast	s for the sam for pkeep of	2015 ("Listing Regulations"). The present Board of for all current and future liabilities, including uncrystallised, arising from the non-compliance or by the erstwhile management or the Resolution Pr the Act, Listing Regulations, and other SEBI/Corp losses or damages related to actions or omissi	g contingent liabilities, crystallist non-disclosure of statutory obligation rofessional, including but not limited porate Laws. This includes any clair
of EOI including KYC documents, Eligibility Criteria documents, etc. by the Prospective bidder: Date of declaration of Qualified Up to Thursday	y, 19th December, 20		in the Postal Ballot shall be final and The results of the Postal Ballot will b 5:00 p.m. as well as by placing it.	binding on the Members. announced on or before Monday, 30.12.2024 at along with the Scrutinizer's Report at weblink along with the Scrutinizer's Report at weblink	e by one of the by one	losses or damages related to actions or omissi Resolution Professional. Based on the immunity plan, the Company and the newly constituted Bo consequences arising from past activities or dec Desclution Professional. This declaring access to	provided in the sanctioned resolut pard of Directors are immune from cisions of the former management
by the Qualified Bidder(s) Mr. Sudhanshu between 11:00	prior intimation to Pandey Mob.98219	16190	of the website of the Company. In case of any query/grievances conn- may write an e-mail to helpdesk.ep 1800 21 09911 or may write/contact to	cted with the voting by electronic means, members oting@cdslindia.com or contact at toll free no.: Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds,		Resolution Professional. This disclaimer serves to o of Directors of the Company, its officers and the ner irregularities or legal obligations incurred prior to to Company on January 4, 2024. The Ministry of Corporate Affairs vide various circu	w management are insulated from a aking over management control of ular issued from time to time, the lat
Last date for submission of Declaration Forms and Earnest Money Deposit (EMD)	7th December, 2024,	, by 5 pm.	N M Joshi Marg, Lower Parel (East) Shah, Company Secretary at Maith	Mumbai - 400013 or may contact Mr. Rajesh K. an Alloys Limited, 4 th Floor, 9 AJC Bose Road, ithanalloys.com/Phone No.: 033-4063-2393.	651 len	being General Circular No. 09/2024 dated Septem AGM through VC/OAVM without the physical prese circular dated May 13, 2022 read with other relev including circular dated October 03, 2024, extended	ence of member. Further, SEBI vide vant circulars issued from time to ti d the relaxation in respect of sending
The auction comprises of two lots and Bids shall be sul in the format prescribed. The auction for the blocks in L bidder for Lot-1. The bid form along with detailed ter	ot-2 will start, only if the rms & conditions of c	ere is no successful complete E-Auction	Place : Kolkata Date : 27 th November, 2024	For Maithan Alloys Limited (Rajesh K Shah) Company Secretary	B B	physical copies of the Annual Report to Members Notice of AGMs and Annual Report for the financial Members whose e-mail IDs are registered with the	l year 2022-23, are being sent to all
process can be downloaded from the website of https:// Sr. No Description(Assets)	Reserve	EMD (5%of				2024 and also being uploaded on the Company's w on the Stock Exchange's website at www.bseindia.c	vebsite at https://www.rnaval.co.in/, a com and www.nseindia.com
No. Description(Assets) Lot Corporate Debtor as a whole (on a going cond 1 basis) Details of Blocks in Lot 2:		Reserve Price) s) (Rs. In lakhs) 259.31	Diamond	RATAAP SNACKS LIMITEI CIN: L15311MP2009PLC021746 Registered Office: Khasra No. 378/2, Nemawar Road, Near Makrand House, Palda, Indore – 452020, Madhya Pradesh, India	12 <u>1</u>	In compliance with Section 108 of the Companie Companies (Management and Administration) Rule and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obliga Regulations, 2015 and the Secretarial Standards institute of Company Secretaries of India, Members their votes on all the resolutions set forth in the Not	es, 2014 as amended from time to t ations and Disclosure Requirement s on General Meetings issued by s will be provided with the facility to c
Sr. No. Description(Assets)	Reserve Price	Reserve Price)		Tel: (+91 731) 2437604/642 E-mail: info@yellowdiamond.in Website: www.yellowdiamond.in		platform provided by the KFintech. Details of remote	
Block Mining lease land - Quarry taken on lease for granite over an extent of 1.44 hects., in Sy N of Kothagattu Village, Sankarapatnam Mano Karimnagar District, Telangana State	or colour 337.81 No. 553 dal,	s) (Rs. In lakhs) [′] 16.89	Offer (as defined below), made by Ar Kela in her capacity as person actin	of Independent Directors ("IDC") of Prataap Snacks Limited ("Target Company") on the (thum Investment & Infrastructure Limited (the "Acquirer") together with Ms. Mahl Madhus in concert with the Acquirer ("PAC") to the Public Shareholders of the Target Company u Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 11" November, 2024	dan Parka and		iday, December 26, 2024 (5:00 P.M. I le aforesaid period. all also be provided at the AGMs. Th /C/OAVM facility and have not alre
Block Mining lease land - Quarry taken on lease to granite over an extent of 1.80 hects., in Sy No. 573 (18.269946N and 79.32707E) of Kothagatt Sankarapatnam Mandal, Karimnagar, Telanga	. 552 and tu Village,	21.05	2. Name of the Target Company 3. Details of the Offer pertaining to Target Company	Prataap Snacks Limited		from doing so, shall be eligible to vote through e-voting have already cast their vote by remote e-voting prior to VC/OAVM facility but shall not be entitled to vote aga	g system during the AGM. Members v to the AGM may attend the AGM thro ain or change their vote at AGM.
Block 3 Mining lease land - Quarry taken on lease f granite over an extent of 3.33 hects., in Sy No. 4 551 of Kothagattu Village, Sankarapatnam Karimnagar District, Telangana State	499P and	39.11		(the "Equity Shares") of Prataap Snacks Limited (the "Target Company"), representing 26.0 of the Voting Share Capital at a price of ₹ 864/- (Indian Rupees Eight Hundred Sixty Four) Offer Share ("Offer Price") from the public shareholders of the Target Company by Auth Investment & Infrastructure Limited (the "Acquirer") together with Ms. Mahi Madhusudan Kel her capacity as person acting in concert with the Acquirer ("PAC") pursuant to and in compliar	um Den	The Voting rights of the Members shall be in proport paid up equity share capital of the Company as on cut-off date for this purpose. A person whose name as on the cut-off date shall only be entitled to avail the voting at the AGM, if the remote e-voting has not been	n Thursday December 19, 2024, be is recorded in the Registrar of Mem the facility of remote e-voting as wel
Block Mining lease land - Quarry taken on lease for cold quarries are spread over the extent of 4.929 hects., lease the Mining Officer, Berhampur, Odisha State in villages (No. 186) and Pitambrpur (No. 230) of Santosh Patrapur Thasil, Ganjam District, of Odisha State (Pin:	eased from s babanpur npur Post,	65.51		with Regulations 3(1) and 4 and other applicable Regulations of the SEBI (Substan Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI (SAST) Regulations"). The Public Announcement ("PA") dated 26" September, 2024, Corrigendum to Pu Announcement dated 4" October, 2024, Detailed Public Statement ("DPS") dated 4" Octob	lic er,	Members who need assistance or help during the number 1800-309-4001 or write to them at evoting@	
Block 5 Freehold Land at Babanpur Village, patapur District Ganjam, Odisha Khatta No.159/7 and khatta Nos. (Ac. 6.886 Dec.) of Odisha state.	r Tahasil, 304.34	15.22	 Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer 	2024 and Draft letter of offer ("DLOP") dated 11" October, 2024 have been issued by Financial Limited on behalf of the Acquirer and the PAC. Acquirer: Authum Investment & Infrastructure Limited		Place: Amreli Date: 28/11/2024	Direc DIN: 00660
Block Freehold Land of 2.43 Acres at Sy No. 18 6 ChemabarambakkamVillage,Poonamalle ThiruvallurDist, Tamil Nadu.	Taluk,	61.30	5. Name of the Manager to the offer	PAC: Mahi Madhusudan Kela JM Financial Limited 7 ^a Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400025, India	PRIDENTIAL	Prudential Asset Management	t Company Limited
Block Freehold Land with Factory Building, Plot Nos. 7 293, 295, 296, 301, 154/961, 155/962, 245/18 1811, 295/1812,301/1840 Comprised in survey in 119, 130, 155, 169, 181, 352 Nos. 149, 161, 293, 295, 296, 301, 154/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 155/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961, 156/961	383, 295/ numbers: ding, Plot 155/962,	8.81		Tel. No.: +91 22 6630 3030, Fax No.: +91 22 6630 3330 Email ID: prataapsnacks.openoffer@jmfl.com, Website: www.jmfl.com Contact Person: Ms. Prachee Dhuri SEBI Registration Number: INM000010361	Registered Office: 12th Floo	Corporate Identity Number: U99999DL1	1993PLC054135 Id, New Delhi - 110 001.
245/1883, 295/1811, 295/1812, 301/ 1840 Com survey numbers: 119, 130, 155, 169, 181, 352 khatta No.in Majhigam Village &Mouza, Taha District Ganjam, Berhamour, Odisha (Ac.2.130 D Block Plant and Machinery located at :	2 Various asilkonisi,	5.86	6. Members of the Committee of Independent Directors 7. IDC Member's relationship with	Mr. Chetan Kumar Mathur (DIN: 00437558) - Chairperson Mrs. Venu Vashista (DIN: 09006358) - Member Mr. Bharadwaj Thiruvenkatava Venkatraghavan (DIN: 02918495) - Member 1. All the IDC Members are Non - Executive Independent Director on the Board of Directors	Bandra (East), Mumbai Website: www. Central Service Office: 2	ONE BKC, A - Wing, 13 th Floor, Bandra- - 400 051; Tel.: +91 22 2652 5000, Fax icicipruamc.com, Email id: enquiry@icici 2 nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge P	r: +91 22 2652 8100, ipruamc.com 'ark, Western Express
8 A.Quarry lease for colour granite quarries are spr the extent of 4.929 hects., leased from the Mining Berhampur, Odisha State in villages babanpur (and Pitambrpur (No. 230) of Santoshpur Post, Thasil, Ganjam District, of Odisha State (Pin: 760	ead over g Officer, No. 186) Patrapur 0104)	0.00	the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	 All the IDC Members are Non - Executive independent Director on the Board of Directors the Target Company. None of the IDC Members hold any equity shares or other securities in the Target Company Other than their position as Independent Director of the Target Company, the IDC Memb have no other contracts or relationships with the Target Company. 	Notice to the Investors/U	Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 nit holders of ICICI Prudential Bala ty & Debt Fund (the Schemes)	
B.Babanpur Village, patapurTahasil,District Odisha IKhatta No.159/7 and various khatta N 6.886 Dec.)IOdisha state Land & Factory Building, Plot Nos. 149, 161, 2 296, 301, 154/961, 155/962, 245/1883, 295/18 1812, 301/1840 Comprised in survey numbers: 4	Nos. (Ac. 293, 295, 311, 295/		8. Trading in the Equity shares/ other securities of the Target Company by IDC Members	None of the IDC Members have traded in the Equity shares of the Target Company during the: a. 12 (Twelve) months period preceding the date of the PA; and b. period from the date of the PA till the date of this recommendation.	Mutual Fund has approve capital withdrawal option	at ICICI Prudential Trust Limited, Tru d the following distribution under In (IDCW option) of the Schemes, su e record date i.e. on December 2, 202	ncome Distribution cum ubject to availability of
155, 169, 181, 352 Land & Factory Building, F 149, 161, 293, 295, 296, 301, 154/961, 245/1883, 295/ 1811, 295/1812,301/1840 Com survey numbers: 119, 130, 155, 169, 181, 352 khatta No.in Majhigam Village & Mouza, Taha District Ganjam, Berhamour, Odisha (Ac.2.130 D	Plot Nos. 155/962, prised in 2 Various isilkonisi,		 IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any, 	None of the IDC members: a. are directors on the board of the Acquirer; b. holds any equity shares or other securities of the Acquirer; or c. have any contracts/relationship with the Acquirer.	Name of the Scheme		NAV as on
Block Stock / Inventory (consisting majorly of granite 9 blocks/stones in quarry) at	414.20	20.71	10. Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	None of the IDC Members have traded in any of the Equity shares or other securities of Acquirer.	he ICICI Prudential Balance Monthly IDCW	d Advantage Fund 0.07	21.39
A.Quarry lease for colour granite over an extern hects., in Sy No. 553 of Kothagattu Village, patnam Mandal, Karimnagar District, Telangana	Sankara		11. Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is	Based on the review of the PA, Corrigendum to PA, DPS and DLOF issued by JM Finan Limited, the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer and PAC, IDC Members believe to	Direct Plan – Monthly IDC		25.32
B.Quarry lease for colour granite over an exter hects., in Sy No. 552 and 573 (18.269946N at 707E) of Kothagattu Village, Sankarapatnam	nd 79.32		fair and reasonable	the offer is fair and reasonable and in line with SEBI (SAST) Regulations. However, shareholders are advised to independently evaluate the Offer and make informed decision	the Monthly IDCM/	0.16	42.11
Karimnagar Telangana State C.Quarry lease for colour granite over an exter hects., in Sy No. 499P and 551 of Kothagattu	nt of 3.33			about whether or not to offer their shares in the Open Offer. Further, IDC Members confirm that the Target Company has not received any complaint from	Direct Plan – Monthly IDC		66.30
Sankara patnam Mandal, Karimnagar District, Te State	elangana		12	shareholders regarding the Open Offer process, valuation price or valuation method.	 S The distribution will be be lower depending up 	subject to the availability of distribu on the extent of distributable surplus	
Block Stock / Inventory (consisting majorly of granit blocks/ stones in quarry) at A.Quarry lease for colour granite quarries are	00.00	3.45	12. Summary of reasons for recommendation	IDC has evaluated the PA, Corrigendum to PA, DPS and DLOF issued/submitted by JM Finan Limited for and on behalf of the Acquirer and PAC and believe that the Offer Price of ₹ 86 (Indian Runness Fight bundled and sixty four) per fully pair[up Equity Shares (*Offer Price	4/-	ption of the Scheme. applicable statutory levy, if any	
over the extent of 4.929 hects., leased from th Officer, Berhampur, Odisha State in villages b	e Mining babanpur			(Indian Rupees Eight hundred and sixty four) per fully paid-up Equity Shares ("Offer Pric offered by the Acquirers being the highest price amongst the selective criteria is in line with SEBI (SAST) Regulations and prime facie appears to be fair and reasonable based on	the * or the immediately follo	wing Business Day, if that day is a N	lon – Business Day.
(No. 186) and Pitambrpur (No. 230) of Sau Post, PatrapurThasil, Ganjam District, of Odis (Pin: 760104) Babanpur Village, patapur	ntoshpur sha State			Independent valuation certificate dated 9° November, 2024 issued by M/s. Ritesh Gupta & C Company Secretaries (Mr. Ritesh Gupta, Proprietor, FCS: 5200, COP: 3764).	0 The distribution with resp	ect to IDCW will be done to all the pear in the register of unit holders/	
District Ganjam, Odisha Khatta No.159/7 and khatta Nos. (Ac. 6.886 Dec.) Odisha State	d various			The Offer price is higher than the volume-weighted average market price of the Tar Company's equity shares for a period of 60 trading days immediately preceding the date of	owners maintained by the	Depositories, as applicable under t	
Block Stock / Inventory (consisting majorly of granit 11 blocks / stones) at Hanakadapura	Village,	1.40		PA as traded on stock exchange with maximum volume of trading [National Stock Exchange India Limited (NSE)] i.e. ₹ 860.82/- per Equity Share:	of	siness hours on the record date. That pursuant to payment of	IDCW. the NAV of
KanakapuraTaluk, Rama nagara District, Ka 562117 Bidder/s may refer to detailed terms and conditions a	ý.	(E-auction Process		Further, the IDC members draw attention to the closing market price of the Equity Shares of Target Company on NSE as on 11" November, 2024 being ₹ 1,055.35/- per Equity Share, wh	the IDCW option of t	the Schemes would fall to th	
Memorandum) through websites:https://nbid.nesl.co.in/app the sale auction notice. They can contact through Email:ara	o/login and can also vis venthanse@nesl.co.in, i	sit www.ibbi.gov.in for ipsupport@nesl.co.in		is higher than the Offer Price. Accordingly, the shareholders of the Target Company are advi- to independently evaluate the Offer and make informed decisions on whether or not to offer the shares in the Open Offer.	eir	r applicable). For ICICI Prudential Asset Managen	nent Company Limited
, sankar@nesl.co.in,or write to the undersigned at freeworld Araventhan SE +91- 9384676709,or can contact Mr.Sudhar Payment of the bid price along with interest, charges or	nshu Pandey, Mob.No. + taxes as applicable mu	+91-9821916190. ust be completed by	13. Disclosure of voting pattern of	shares in the Open Offer. The Recommendations were unanimously approved by the IDC members present in the Meet	Place: Mumbai	-/Sd Authorised S	- Signatory
the successful bidder within the period stipulated in the E failure to do so will make him liable for penal action, amounts deposited, and cancellation of sale. As per Reg	E-Auction Sale Process including, but not lim	s Memorandum and hited to forfeiture of	the IDC Meeting 14. Details of Independent	held on 11" November, 2024. M/s. Ritesh Gupta & Co., Company Secretaries	No. 013/11/2024		all and a second s
Regulations, 2016 i.e. in consultation with Stakeholders may consider extension of the period of payment for a re-	s' Consultation Comm asonable period beyon	ittee, the Liquidator nd ninety days.	Advisors, if any. 15. Any other matter(s) to be	None		00 222 999/1800 200 6666 or visit <u>www</u> to periodically review and update their K	
The Liquidator has the absolute right to accept or re postpone / cancel the e-Auction or with draw any pro proceeding at any stage. Any revision in the sale no	eject any or all offer(s perty or portion there	s) /bids or adjourn/ of from the auction	highlighted	, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is,	n all	their mobile number and email id.	
https://nbid.nesl.co.in/app/login It is requested to all the l	bidders to kindly visit th		material respect, true and correct and	ot misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the inform ompany under the SEBI (SAST) Regulations.	tion To increase awareness of	bout Mutual Funds, we regularly conduc . To know more about it, please visit <u>http</u>	
Liquidator of Free worl IBBI Regn.No.:N	d Exports Private Limi No:IBBI/IPA-003/00337	ited (In Liquidation) 7/2021-2022/13620		For and on behalf of Committee of Independent Direct of Prataap Snacks Lin	tors or visit	AMFI's website https://www.amfiindia.c	:om
Place: Chennai Mahabalipuram Road (OMR), E	I, Tiana, House of Hira	ur Post Office, Near	Place: Indore	Chetan Kumar Ma Chairperson of Committee of Independent Direc	6d/- Mutual Fund i hur read all se	nvestments are subject to m cheme related documents ca	사람이 바람이 있는 것은 것은 것이 있는 것이 있는 것이 있는 것이 있다. 이 가지 않는 것이 있는 것이 있다. 이 가지 않는 것이 있는 것이 없는 것이 없는 것이 있는 것이 없는 것이 없다. 것이 않는 것이 없는 것이 않는 것이 않는 것이 없는 것이 없 않는 것이 없는 것이 않는 것이 않이
			Date: 11" November, 2024	financialexp.epapr.in			-



ASHIANA HOUSING LTD.

CIN: L70109WB1986PLC040864

Regd. Off. : 5F, Everest, 46/C, Chowringhee Road, Kolkata - 700 071 Head Off. : Unit No. 4 & 5, Illrd Floor, Southern Park, Plot No. D-2 Saket District Centre, New Delhi -110 017 Website: www.ashianahousing.com Email: investorrelations@ashianahousing.com

PUBLIC NOTICE

This is to inform to all concerned that the company has received request along with necessary indemnity bond and affidavit from shareholder(s) of the company to issue duplicate share certificate in lieu of the lost share certificate, details of which is given herein below:

SI. No.	Name of Regd. Shareholder	L.F. No.	Share Certificate No.	Distinctive No.	No. of Shares
1.	Subhash Kumar	0004255	918	1777501-1781000	3,500

Since the company is in the process of issuing duplicate share certificate, any person who has objection on such issue, may lodge his objection within 15 days from the date of appearance of this advertisement to the company or its Registrar M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., Beetal House, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Dass Mandir, New Delhi-110 062.

For Ashiana Housing Ltd.

175-11 (000) (00-160)	Sd/
Place : New Delhi	Nitin Sharma
Place : New Delhi Date : 27th November, 2024	(Company Secretary

RELIANCE NAVAL AND ENGINEERING LIMITED

CIN: L35110G1997PLC033193 Regd. Office: Pipavav Port, Post Ucchaiya, Via-Rajula, Dist:- Amreli, Rajula - 365560 Email Id: mel@swan.co.in website: www.maval.co.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 26th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, December 27, 2024 at 11.30 AM (IST) by mean of Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the businesses set out in the Notice convening AGM being circulated.

Members may kindly note that the incumbents of the reconstituted Board of Directors of the Company were not in office during the reporting period to which this Report primarily pertains. The erstwhile suspended management and the Resolution Professional were entrusted with and responsible for managing the affairs of the Company. The reconstituted Board of Directors of the Company have submitted the Annual Report for the financial year ended March 31, 2023 and approved the Financial Statements for the year ended March 31, 2023, only to fulfil the regulatory requirements under the provisions of the Companies Act, 2013, the rules and regulations framed thereunder ("Act"), and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015 ("Listing Regulations"). The present Board of Directors disclaims any responsibility Ilised. ations ted to laims, ent or lution om all ent or Board n any of the

0120-6651	circular dated May 13, 2022 read with of including circular dated October 03, 2024 physical copies of the Annual Report to Notice of AGMs and Annual Report for the Members whose e-mail IDs are register 2024 and also being uploaded on the Corr on the Stock Exchange's website at www In compliance with Section 108 of the Companies (Management and Administr and Regulation 44 of the SEBI (Listi Regulations, 2015 and the Secretarial institute of Company Secretaries of India their votes on all the resolutions set forth platform provided by the KFintech. Detail	Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the ration) Rules, 2014 as amended from time to time ng Obligations and Disclosure Requirements) Standards on General Meetings issued by the Members will be provided with the facility to cast in the Notice of the AGMs using remote e-voting s of remote e-voting as under:
	Commencement of remote e-voting End of remote e-voting	Monday, December 23, 2024 (9:00 A.M. IST) Thursday, December 26, 2024 (5:00 P.M. IST)
Call	VC/OAVM facility but shall not be entitled The Voting rights of the Members shall be paid up equity share capital of the Comp cut-off date for this purpose. A person wh as on the cut-off date shall only be entitle voting at the AGM, if the remote e-voting it	
		By order of the Board For Reliance Naval and Engineering Limited Paresh Merchant
5 11 mg	Place: Amreli Date: 28/11/2024	Director DIN: 00660027

155, 169, 181, 352 Land & Factory Building, Plot Nos.		9. IDC Member's relationship with	None of the IDC members:	and the debie surplus of the record a	are not on a position by a da	11.30
149, 161, 293, 295, 296, 301, 154/961, 155/962, 245/1883, 295/ 1811, 295/1812,301/1840 Comprised in survey numbers: 119, 130, 155, 169, 181, 352 Various khatta No.in Majhigam Village & Mouza, Tahasilkonisi, District Ganjam, Berhamour, Odisha (Ac.2.130 Dec)		the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any,	 are directors on the board of the Acquirer; b. holds any equity shares or other securities of the Acquirer; or c. have any contracts/relationship with the Acquirer. 	Name of the Schemes/Plans	Quantum of IDCW (₹ per unit) (Face value of ₹ 10/- each) ^{\$#}	NAV as on November 26, 2024 (₹ Per unit)
	Block Stock / Inventory (consisting majorly of granite slabs / blocks/stones in quarry) at A.Quarry lease for colour granite over an extent of 1.44 hects., in Sy No. 553 of Kothagattu Village, Sankara	10. Trading in the Equity	None of the IDC Members have traded in any of the Equity shares or other securities of the	ICICI Prudential Balanced Advantage Fund		
9 blocks/ stones in quarry) at		shares/other securities of the acquirer by IDC Members	Acquirer.	Monthly IDCW	0.07	21.39
hects., in Sy No. 553 of Kothagattu Village, Sankara		11. Recommendation on the Open	Based on the review of the PA, Corrigendum to PA, DPS and DLOF issued by JM Financial	Direct Plan – Monthly IDCW	0.07	25.32
patnam Mandal, Karimnagar District, Telangana State B.Quarry lease for colour granite over an extent of 1.80		offer, as to whether the offer is fair and reasonable	Limited, the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer and PAC, IDC Members believe that	ICICI Prudential Equity & Debt Fun	d	
hects., in Sy No. 552 and 573 (18.269946N and 79.32 707E) of Kothagattu Village, Sankarapatnam Mandal,		Tall and reading	the offer is fair and reasonable and in line with SEBI (SAST) Regulations. However, the shareholders are advised to independently evaluate the Offer and make informed decisions	Monthly IDCW	0.16	42.11
Karimnagar Telangana State C.Quarry lease for colour granite over an extent of 3.33			about whether or not to offer their shares in the Open Offer.	Direct Plan – Monthly IDCW	0.16	66.30
hects., in Sy No. 499P and 551 of Kothagattu Village, Sankara patnam Mandal, Karimnagar District, Telangana			Further, IDC Members confirm that the Target Company has not received any complaint from the shareholders regarding the Open Offer process, valuation price or valuation method.	\$ The distribution will be subject to be lower depending upon the external	그 전도도 나는 그러도 한 것 같아요. 이 같은 것 같은 것 같아요. 이 것 같아요. 이 것 같아요. 것 같아요. 이 것 같아요. 이 것 같아요.	
StateBlockStock / Inventory (consisting majorly of granite slabs / blocks/ stones in quarry) at A.Quarry lease for colour granite quarries are spread over the extent of 4.929 hects., leased from the Mining Officer, Berhampur, Odisha State in villages babanpur (No. 186) and Pitambrpur (No. 230) of Santoshpur Post, PatrapurThasil, Ganjam District, of Odisha State (Pin: 760104) Babanpur Village, patapur Tahasil, District Ganjam, Odisha Khatta No.159/7 and various khatta Nos. (Ac. 6.886 Dec.) Odisha State27.971.40BlockStock / Inventory (consisting majorly of granite slabs / blocks/ stones) at Hanakadapura Village, Kanakapura Taluk, Rama nagara District, Karnataka 56211727.971.40Bidder/s may refer to detailed terms and conditions and tender documents (E-auction Process Memorandum) through websites:https://nbid.nesl.co.in/app/login and can also visit www.ibbi.gov.in for the sale auction notice. They can contact through Email:araventhanse@nesl.co.in, ipsupport@nesl.co.in	12. Summary of reasons for recommendation	IDC has evaluated the PA, Corrigendum to PA, DPS and DLOF issued/submitted by JM Financial Limited for and on behalf of the Acquirer and PAC and believe that the Offer Price of ₹ 864/- (Indian Rupees Eight hundred and sixty four) per fully paid-up Equity Shares ("Offer Price") offered by the Acquirers being the highest price amongst the selective criteria is in line with the SEBI (SAST) Regulations and prime facie appears to be fair and reasonable based on an independent valuation certificate dated 9" November, 2024 issued by M/s. Ritesh Gupta & Co., Company Secretaries (Mr. Ritesh Gupta, Proprietor, FCS: 5200, COP: 3764). The Offer price is higher than the volume-weighted average market price of the Target Company's equity shares for a period of 60 trading days immediately preceding the date of the PA as traded on stock exchange with maximum volume of trading [National Stock Exchange of India Limited (NSE)] i.e. ₹ 860.82/- per Equity Share: Further, the IDC members draw attention to the closing market price of the Equity Shares of the Target Company on NSE as on 11" November, 2024 being ₹ 1,055.35/- per Equity Share, which is higher than the Offer and make informed decisions on whether or not to offer their shares in the Open Offer.	date under the IDCW option of the # Subject to deduction of applicable * or the immediately following Busis The distribution with respect to IDC owners whose names appear in the owners maintained by the Deposito Scheme, at the close of business hou It should be noted that purs the IDCW option of the Sche and statutory levy (if applica	e Scheme. e statutory levy, if any ness Day, if that day is a No CW will be done to all the e register of unit holders/S ries, as applicable under th irs on the record date. uant to payment of I emes would fall to the	on – Business Day. unit holders/beneficial tatement of beneficial ne IDCW option of the DCW, the NAV of e extent of payout	
Araventhan SE +91-9384676709,or can contact Mr.Sudhanshu Pandey, M Payment of the bid price along with interest, charges or taxes as applic the successful bidder within the period stipulated in the E-Auction Sale	cable must be completed by	13. Disclosure of voting pattern of the IDC Meeting	The Recommendations were unanimously approved by the IDC members present in the Meeting held on 11" November, 2024.	Date : November 27, 2024	Authorised S	ignatory
failure to do so will make him liable for penal action, including, but amounts deposited, and cancellation of sale. As per Regl. 31A (1)(h) or	t not limited to forfeiture of	14. Details of Independent	M/s. Ritesh Gupta & Co., Company Secretaries	No. 013/11/2024		
Regulations, 2016 i.e.in consultation with Stakeholders' Consultation	Committee, the Liquidator	Advisors, if any.		To know more, call 1800 222 999)/1800 200 6666 or visit <u>www</u>	v.icicipruamc.com
nay consider extension of the period of payment for a reasonable perio The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or a postpone / cancel the e-Auction or with draw any property or portion	Il offer(s) /bids or adjourn/	15. Any other matter(s) to be highlighted	None	Investors are requested to periodica their mob	Illy review and update their KY ile number and email id.	C details along with
proceeding at any stage. Any revision in the sale notice will be up https://nbid.nesl.co.in/app/login It is requested to all the bidders to kindl Liquidator of Free world Exports Priv.	bloaded on the website on ly visit the website regularly. M G Chandrasekaran rate Limited (In Liquidation)	material respect, true and correct and n	, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all ot misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information ompany under the SEBI (SAST) Regulations. For and on behalf of Committee of Independent Directors	To increase awareness about Mutue Programs across the country. To know r	al Funds, we regularly conduct	:://www.icicipruamc.com
IBBI Regn.No.:No:IBBI/IPA-00 Address: Flat No 104, Tiana, House Place: Chennai Date: 28.11.2024 Mahabalipuram Road (OMR), Egattur Village, Marina Mall, Chengalpat D	AFA Valid upto 30.06.2025 e of Hiranandani, 5/63, Old , Navalur Post Office, Near	Place: Indore	of Prataap Snacks Limited Sd/- Chetan Kumar Mathur Chairperson of Committee of Independent Directors	Mutual Fund investme read all scheme re	ents are subject to mo elated documents car	신 모양 수가 되었어? 아파 아파 그 가 가 가 가지?
		Date: 11" November, 2024	financialexp.epapr.in			



नई दिल्ली



CIN: L85110DL2004PLC126414 पंजीकृत कार्यलिय: प्लॉट नंबर १४, सेक्टर- २०, द्वारका, दिल्ली-११० ०७५ कॉपॉरेट कार्यालय: आर्टेमिस अस्पताल, सेक्टर- ५१, गुरुग्राम, हरियाणा- १२२ ००१ टेलीफोन: +91-124-4511 111 | ई-मेल: investor@artemishospitals.com वेवसाइट: www.artemishospitals.com

पोस्टल बैलेट नोटिस

एतद् द्वारा आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड (**'कंपनी**') के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, २०१३ (**'अधिनियम**') की थारा 108 के साथ पठित थारा 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (**नियम**) के नियम 20 और 22 के साथ पठित, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 **('सेबी लिस्टिंग विनियम)** के विनियम 44, सामान्य पटिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और इस संबंध ां जारी किए गए बाद के परिपत्र, कॉपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 **('एमसीए** परिपत्र), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जाये सामाव्य बैठकों पर सचिवीय मानक ('रक्वास-२') और किसी भी अन्य लाजू परिपत्र), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जाये सामाव्य बैठकों पर सचिवीय मानक ('रक्वास-२') और किसी भी अन्य लाजू परिपत्र, अधियचना और विनियमन (इस समय लाजू किसी भी वैधानिक संशोधन या पन: अधिनियमन सहित्त) के अनुपालन में, कंपनी दिनांक 1 नवम्बर, 2024 के पोस्टल बैलट नोटिस (**'पोस्टल बैलट नोटिस'**) में निर्धारित विशेष व्यवसायों के संबंध पोस्टल बैलट केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना चाहती है।

उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने पोस्टल बैलेट नोटिस केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा है और सदस्यों की सहमति या असहमति क संचार भी केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से होगा।

फंपनी ने 26 नवम्बर, 2024 को केवल उन सभी सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से पोस्टल बैलट नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रति भेजने का काम पूर कर लिया है, जिनके नाम शुक्रवार, २२ नवम्बर, २०२४ (**कट-ऑफ तारीख**) को सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारी मालिकों की सूची में दिसाई देते है और जिनके ई-मेल पते कट-ऑफ तारीख को कंपनी या उसके रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (**"आरटीए")** या डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओ) के पास ਸਂਗੀकृत हैं। इस पोस्टल बैलट के लिए पोस्टल बैलट फॉर्म और प्रीपेड बिजनेस टिप्लाई एनवेलप के साथ पोस्टल बैलट नोटिस की हाई कॉपी सदस्यों को नहीं भेजी जाएगी।

पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.artemishospitals.com पर, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिसिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंग ऑफ इंडिया लिमिटेड की बेबसाइट क्रमर्श: www.bseindia.com और www.nseindia.com पर, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") www.evoting.nsdl.com की वेबसाइट: पर भी उपलब्ध है।

, मुपया ध्यान दें कि धारा 108, 110 और अधिनिय के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुपालन में (1) नियम 20 और 22, जैसा कि संशोधित कैया गया है (II) सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियम 44 और (III) एमसीए परिपत्रों के साथ, कंपनी ने अपने सदस्यों को केवल रिमोट ई-वोटिंग विधा प्रदान की है ताकि वे भौतिक पोस्टल बैलट फॉर्म जमा करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। कंपनी ने सदस्यों क रैगोट ई-वोटिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं, ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से और सुरक्षित तरीके से अपना वोट डाल सकें। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि और समय: बुधवार, २७ नवम्बर, २०२४ सुबह ९:०० बजे (IST);

रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि और समय: गुरुवार, २६ दिसंबर, २०२४ शाम ५:०० बजे (IST)।

क्त रिमेट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, वे सदस्य जिनके नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सची में दिखाई दे रहे , केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना बोट डालने के हकदार होंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि को कंपनी की चुकत द, क्यूजि थे हो राजांक दुन्यालिय है जायरा हो जन्मा वार डार्डज के दुक्यां हुना विरुद्ध व यालन जायला के किया के ज इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। गुरुवार, 26 दिसंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (IST) के बाद टीमेर ई-वोटिंग की अनुमति कहीं दी जाएगी और उसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा टिमोट ई-वोटिंग मॉझ्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्यों द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, उन्हें बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस ोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और निर्देशों सहित अधिक जानकारी के लिए, सदस्यों से अनुरोध े कि वे पोस्टल बैलेंट नोटिस देखें।

जिन सदस्यों के शेयर डीमैट मोड में हैं और जिन्होंने अपने ई-मेल पते सहित केवाईसी विवरण अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपर डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने ई-नेल पते और अन्य केवाईसी विवरण को अपने डिपॉजिटरी से पंजीकृत कराएं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले और ई-मेल पते सहित अपने केवाईसी विवरण को अपडेट नहीं करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता और अन्य न्वाईसी विवरण अपडेट करने के लिए फॉर्म आईएसआर-१ कंपनी के आरटीए को या तो अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाउस, 4ई/2 झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली – ११००५५ पर डाक द्वारा या rta@alankit.com पर ई-मेल द्वारा जमा करें।

ंघपनी के निदेशक मंडल ने पोस्टल बैलट / ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए डीएमके एसोसिएट् ('डीएमके'), प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज 'के पार्टनर श्री दीपक कुकरेजा (सीपी नंबर 8266) को स्कूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है और उनके असफल होने की स्थिति में डीएमके की पार्टनर सुश्री मोनिका कोहली (सीपी नंबर 4936) को वैकल्पिक स्कूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त केया है।

पोस्टल बैलेट का परिणाम २८ दिसंबर, २०२४ को शाम ५:०० बजे (IST) या उससे पहले घोषित किया जाएगा। उक्त परिणाम, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ कंपनी की बेबसाइट www.artemishospitals.com, NSDL की बेबसाइट www.avating.nsdl.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे और उन स्टॉक एक्सवेंजों को सूचित किया जाएगा जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और जीव प्रधावना का सूचवा महाना जाए जाएंगे। यदि प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत से पारित हो जाते हैं, तो उन्हें रिमोट ई-वोटिंग के लिए निदिष भंतिम तिथि यानी गुरुवार, २६ दिसंबर २०२४ को पारित माना जाएगा।

रिमोट ई-वोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिख अक्सर पूछे जाने वालेँ प्रश्न (FAQ) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, NSDL, 4th फ्लोर, 'A' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013 को निर्दिष्ट ई-मेल आईडी evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं। सदस्य कंपनी सचिव को vestor@artemishospitals.com पर भी लिख सकते हैं।

कृते आर्टेनिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड
- हस्ता/-

पुनम मक्क कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी



Registered Office: Khasra No. 378/2, Nemawar Road, Near Makrand House, Palda, Indore – 452020, Madhya Pradesh, India Tel: (+91 731) 2437604/642 E-mail: info@yellowdiamond.in | Website: www.yellowdiamond.in

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Prataap Snacks Limited ("Target Company") on the Open Offer (as defined below), made by Authum Investment & Infrastructure Limited (the "Acquirer") together with Ms. Mahl Madhusudan Kela in her capacity as person acting in concert with the Acquirer ("PAC") to the Public Shareholders of the Target Company under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011

	: 022-62728517, शाखा का पता					—जी ब्लॉक (पूर्व)			,चिकारी:	कंपनी (पंजीक	ण के लिए प्राधि	रा 374(बी) और इत) नियम, 2014		Date	11" November, 2024
OUSING FINANCE ईमेल आईडी:	े जितेश सावंत मोबाइल नंबर: 730	04559153,	ত, রাওভ পলাং, ঈ	. Sirenzei gede	୍କ, କ୍ୟୁକ୍ମତ, ଖା	- ANIA CORONA	ં ગવપુર રાળસ્થા	. JOEVE INHERED () 4	CONTROL OF	के 1. इसके द्वारा	नियम 4(1) के अ सूचना दी जा	रूसार) ती है कि कंपनी	2.	Name of the Target Company	Prataap Snacks Limited
JUSENE FINANCE इमल आइका ोय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निग म 8(6) के प्रावधान के साथ पठित। 1 जनता को तथा विशेष रूप से ऋणी/बं ता नुधूट हाउसिंग फाइनेंस के अनुसरण में निग बकाया राशि एवं ब्याज की वसूली के ps://sarfaesi-auctiontiger.net/EPROC	अचल संपत्तियों मांण तथा प्रतिमूति हित प्रवर्तन अ बंधककर्ता एवं जमानतदार को सू उब के प्राधिकृत अधिकारी, सुरक्षि म्नलिखित ऋण खातों में ले लि हे लिए ''जहां है जैसी है' , '''	ों की बिक्री अधिनियम, 20 (चित किया ज त लेनदार द्वा या गया है, रू 'जो है जैसी	002 के अंतर्गत अ ताता है कि नीचे व ारा वित्तीय आस्तिय तंपत्ति (संपत्तियों) व है" तथा "जो	चल संपत्तियों व र्णित अचल संप में के प्रतिभूतिक को ऋणी / बंधक	ो बिक्री के लिए त्तियां मुथूट हाउ रण एवं पुनर्निर्मा कर्ता एवं जमान	ई—नीलामी बिब्र सिंग फाइनेंस क ण तथा प्रतिभूति तदार से मुथ्रुट ।	ू पनी लिमिटेड के हित प्रवर्तन अधि हाउसिंग फाइनेंस	पास बंधक/प्रमारित वेनियम, 2002 की धार कंपनी लिमिटेड सुर्रा	हैं, जिनका ा 13(2) के ति लेनदार	अधिनियम, 2 के अनुसार, , की अवधि सम के एजिस्ट्रार कि जय मह अधिनियम 2 अंतर्गत शेयरों किया जाए 2. कंपनी के मु सभी बैटरियो कर्षण बैटरि	013 की धारा 364 इसके 15 दिन बा गोज होने से पहले ! को आवेदन किय काल बैटरीज ए 013 के अच्याय द्वारा सीमित ळंपर्न ड्या उद्देश्य इस प्रम , स्टार्टिंग बैटरिय यों, क्षारीय बैटरि	। की उप-धारा (2) इ लेकिन तीस दिन देल्ली और इरियाणा जाना प्रस्तावित है रएलपी को कंपनी XXI के शागा । के ो के रुप में पंजीकृत कार हैं: र मंडारण बैटरियों, 	з.	Details of the Offer pertaining to Target Company	Open Offer for acquisition of up to 62,98,351 (Sixty Two Lakh Ninety Eight Thousand T Hundred Fifty One) fully paid-up Equity Shares of face value of $< 5/$ - (Indian Rupees Five) ((the "Equity Shares") of Prataap Snacks Limited (the "Target Company"), representing 26. of the Voting Share Capital at a price of $< 864/$ - (Indian Rupees Eight Hundred Skty Four Offer Share ("Offer Price") from the public shareholders of the Target Company by Aut Investment & Infrastructure Limited (the "Acquirer") together with Ms. Mahi Madhusudan Ku her capacity as person acting in concert with the Acquirer ("PAC") pursuant to and in compli with Regulations 3(1) and 4 and other applicable Regulations of the SEBI (Substa Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI (SAST) Regulations"). The Public Announcement ("PA") dated 26 [®] September, 2024, Corrigendum to PI
ps://sarraesi-auctioninger.neoEPROC ऋण खाता संख्या / उधारकर्ता/सह उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता का नाम		1941 - 1942 - 1943 - 1946 - 1946 - 1946 - 1946 - 1946 - 1946 - 1946 - 1946 - 1946 - 1946 - 1946 - 1946 - 1946 -	का जाएगा। कब्जा का प्रकार और तिथि	निरीक्षण की तिथि और समय	आरक्षित मूल	य बयाना राशि (ईएमर्ड		नामी की बोली प्रर गैर समय की अंति	तुत करने ाम तिथि	बटन बैटरिये आपातकाली औद्योगिक, प्रयोजनों के	, सौर ऊर्जा बैट न लाइटों, सूखी ररिवहन, वाणिजि लिए उपयोग व	रेंगें, मिनी बैटरियों, कोशिकाओं और पक और उपभोग्य ठी जाने वाली या के घटकों, मागों,			Announcement dated 4 th October, 2024, Detailed Public Statement ("DPS") dated 4 th Oct 2024 and Draft letter of offer ("DLOF") dated 11 th October, 2024 have been issued by Financial Limited on behalf of the Acquirer and the PAC.
MHFLPNCJP2000005006815 해マ MHFLPROJP2000005008004	27—नवंबर—2024 तक रु.29,98,686 / — (रुपये उन	नतीस लाख	भौतिक कब्जा 09	12/दिसंबर/ 2024	रु 40,00,000/	रु4,00,00 केवल चार	लाख २०	24 20	देसंबर 24	अवयवों, पद फिटिंग्स जि	थॉ, प्रणालियों, च समें बैटरी प्लेट.	क घटका, भागा, पमोज्य सामान या केस, तार, घुंडियां र आर्मेचर वाइंडिंग,	4.	Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer	Acquirer: Authum Investment & Infrastructure Limited PAC: Mahi Madhusudan Kela
2. सरोज देवी मीना 3. राम सिंह मीना		त्रपये उन्नीस सोलह और योजनारामनग	गर विस्तार, ग्राग			, जিला जयपुर	से दोपा बजे र, राजस्थान अ			विद्युत तार र संचायक, बैठ ट्रांसफार्मर, ब्रेकर, एक्वुप मल्टीमीटर अ ऑटोमोबाइल प्रोसेसर, उत्प विक्रेता, आय	भौर सामान, विद्यु दर्श चार्जर, रिले, देखुत स्विच, प्ल पुटर, कनेक्टर, म् रा मल्टी टेस्टर, 1 रा पार्ट्स के निम ादक, आपूर्तिकर्ता, ातक, निर्यातक.	त मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ऑटो ग, सॉकेट, सकिंट पाने के उपकरण, वेद्युत कनेक्टर और ता, संयोजनकर्ता, मेरा नरम्मात, केंब्रिकेटर	5.	Name of the Manager to the offer	JM Financial Limited 7 th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400025, India Tel. No.: + 91 22 6630 3030, Fax No.: + 91 22 6630 3330 Email ID: prataapsnacks.openoffer@jmfl.com, Website: www.jmfl.com Contact Person: Ms. Prachee Dhuri SEBI Registration Number: INM000010361
हार हैं: पूर्व: 30 फीट चौड़ी अमदारफ यम एवं शरीं: 1) ई−नीलामी बिक्री सरफे ने वाली बोली∕प्रस्ताय∕निविदा दस्तावेज	ज्सी अधिनियम, 2002 के तहत 1 में उल्लिखित नियम और शर्ते	मौजूदा दिशा भी। 2) बिक्री	–निर्देशों के अनुर ो "जैसा है जहाँ हं	पार नीचे उल्लि है", "जैसा है ज	खित नियमों औ 'है', और 'जो	र शर्तों के अधी कुछ भी हैं' और	न है और इच्छुव "बिना किसी स	ः बोलीदाता(ओं) द्वारा हारे कें के आधार पर	आयोजित	इंडेंटर्स का व वाणिज्यिक व या आवश्यक अन्य बैटरियां	यवसार करना अं गैर उपमोग्य प्रयो ड्राई सेल, आपात , बैटरी प्लेट, केस	रुरना और वितरकों, द्योगिक, परिवहन, जनों के लिए प्रयुक्त कालीन लाइट और नॉब और सहायक	6.	Members of the Committee of Independent Directors	Mr. Chetan Kumar Mathur (DIN: 00437558) - Chairperson Mrs. Venu Vashista (DIN: 09006358) - Member Mr. Bharadwai Thiruvenkatava Venkatraghavan (DIN: 02918495) - Member
जाएगी। 3) इच्छुक बोलीदाता निर्धारित रूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड' वे ईरी दस्तावेज जमा करने की आवरयक हालांकि एमएचएफऔएल किसी भी र्सटी. पंजीकरण शुल्क, हस्तांतरण शुल्क ल्ब बोलीदाता/खरीदार द्वारा किया जाए	के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्य ज्ता होती हैं, यानी पैन कार्ड, बं मिटेड के अधिकृत अधिकारी के बकाया वैधानिक बकाया/भार/ और बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीय	यम से बयाना बोलीदाता का सर्वोत्तम ज्ञान ⁄ तीसरे पक्ष व करण के संबंध	। राशि जमा ("ईए पहचान प्रमाण अं । और जानकारी वं के दावे/अधिका/ ध में किसी भी अन्	मडी") के साथ गैर पते का प्रम हे अनुसार, संपॉ 'बकाया/नगरप न्य खर्च और शु	होनी चाहिएँ। ब ण जैसे पासपोत ते के संबंध में द लिका कर, रख ल्क सहित किसी	गेली / निविदा / ! ई. चुनाव आयोग उपलब्ध रिकॉर्ड उरखाव / सोसायत गे भी अन्य बकाग	प्रस्ताव दस्तावेजों 1 कार्ड, राशन व के अनुसार बताए टी शुल्क, बिजली या के लिए जिम्मे	के साथ, इच्छुक बो गर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस गए को छोड़कर को और पानी कर या स ादार नहीं होगा, जिस	शीदाता को आदि की भारध्दावा टांप ड्यूटी, का भुगतान	विद्युत तार औ पार्ट्स के निग विक्रय और ब को प्राप्त कर कार्य करना। 3. प्रस्तावित कंप	र संहायक उपकर र्ताता, प्रतिनिधि औ ज्य एजेंट और कंप ने के लिए आवश्य नी के प्रारुप ज्ञाप	ईडिंग, आसुत जल, ग तथा ऑटोमोबाइल र डीलर, स्टॉकिस्ट, नी के मुख्य उद्देश्यों क सभी आकस्मिक न और एसोसिएशन ग –॥, सेक्टर–12,	7.	IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	 All the IDC Members are Non - Executive Independent Director on the Board of Direct the Target Company. None of the IDC Members hold any equity shares or other securities in the Target Comp 3. Other than their position as Independent Director of the Target Company, the IDC Mem have no other contracts or relationships with the Target Company.
ल बोलीदाता∕क्रेता को अंतिम बोली रा र्थ दिवसों के भीतर भुगतान करना होगा। खित रूप में सहमत विस्तारित अवधि के एगी और संपत्ति को फिर से नीलाम कर	शि का 25% (पहले से भुगतान । 6) बिक्री मूल्य का शेष 75: 1 भीतर और केवल उसके विवेक दिया जाएगा तथा चूककर्ता उ	त की गई ई.प प्राधिकृत अधि इ.पर भुगतान धारकर्ता का	एम.डी. के 10: के किसी द्वारा सफल 1 करना होगा। स संपत्ति और राशि	ो समायोजित व । क्रेता को बिव्र फल बोलीदाता के संबंध में कं	रुरने के बाद) प्र ने की पुष्टि के द्वारा भुगतान में ाई दावा नहीं हं	गधिकृत अधिका 15 दिनों के मी रं चूक की स्थि ोगा। 7) इच्छुक	री द्वारा बोली स् तिर या उससे प ते में, पहले से र बोलीदाता जिन्ह	भीकार किएँ जाने के हले या प्राधिकृत अधि जमा की गई राशि ज ोंने ईएमडी जमा कर	बाद अगले कारी द्वारा बा कर ली दी है और	सोनीपत, र्हा देखी जा सब 4. इसके द्वारा स आपत्ति करने प्रकाशन की	रेयाणा—131001 ज्ती है। चिना दी जाती है वाला कोई भी व तिथि से दलकी	स्थित कार्यालय में कि इस आवेदन पर 1क्ति इस सूचना के	8.	Trading in the Equity shares/ other securities of the Target Company by IDC Members	None of the IDC Members have traded in the Equity shares of the Target Company during the: a. 12 (Twelve) months period preceding the date of the PA; and b. period from the date of the PA till the date of this recommendation.
गीलामी पोर्टल पर लॉगिन करने, बोली प्र ऑक्शन टाइगर), हेल्पलाइन नंबर: 9173 र्फ कर सकते हैं और किसी भी संपत्ति से अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रर ध्यान सुरक्षित संपत्ति को मुनाने के लिए ध्यारकर्ता/ बंधाककर्ता कंपया ध्यान दें लिए	3528727 और 63518 96643, % ते संबंधित प्रश्न के लिए ऊपर ब खता है। संभावित बोलीदाताओं ' उपलब्ध समय के संबंध में सर	श्री मीलिक श्री बताए अनुसार से प्राप्त सर्भ रफेसी अधिनिग	ोमाली, ई—मेल अ एप्राधिकृत अधिका ने बोलियां एमएच यम की धारा 13	ाईडीः maulik री से संपर्क क एफसीएल के रि की उपधारा 8	shrimali@au र सकते हैं। 8) बलाफ किसी भी के प्रावधानों की	uctiontiger.ne प्राधिकृत अधिक देयताध्दावे के ओर आकर्षित f	et पर कार्य दिव गरी बिना कोई व बिना उन्हें वापर किया जाता है।	सों में कार्यालय समय घरण बताए किसी/स 1 कर दी जाएंगी। 9) 10) आम जनता और	के दौरान भी बोलियों उधारकर्ता विशेष रूप	केंद्रीय पंजीक मामले संस्था सेक्टर—5, ३ हरियाणा—12 अपनी आपत्ति	रण केंद्र (सीआरस न (आईआईसीए), गईएमटी, मानेस 2050 में रजिस्ट्रार र से अवगत करा), भारतीय कॉपेरिट (संट्या ६,७,८, र, जिला गुरुग्राम, को लिखित रुप में सकता है, जिसकी कार्यालय में भी	9.	IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.	None of the IDC members: a. are directors on the board of the Acquirer; b. holds any equity shares or other securities of the Acquirer; or c. have any contracts/relationship with the Acquirer.
सकता है। 11) बिक्री के विस्तृत नियमे मुगर) https://sarfaesi.auctiontiger.net 1 का नोटिस दिया जाता है।	तों और शलौं के लिए, कृपया ह	डमारी वेबसाइव	ट https://muth	oothousing.co	m और मेसर्स	ईप्रोक्योरमेंट दे	टेक्नोलॉजीज लि	मेटेड के वेब पोर्टल	- (नीलामी	जय मह समन	ाकाल बैटरीज ए इस्ता/— `सखीजा	तएलपी की और से हस्ता/— भविष्य गईएन : 10635866	10.	Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	None of the IDC Members have traded in any of the Equity shares or other securities Acquirer.
ानः राजस्थान, दिनांकः 27–नवंबर–;	2024						हाउसिंग फाइन स्ट्रक्चर नि	नेंस कंपनी लिमिटेब लेमिटेड	के लिए	दिनांक : 28.1			11.	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	Based on the review of the PA, Corrigendum to PA, DPS and DLOF issued by JM Fin Limited, the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer and PAC, IDC Members believ
INSOL API			पंजीकृत कार्यालग	कॉर्पोरेट १: 115, अंसल	पहचान संख्य भवन, १६, कस्तू		L1967PLC0	04759 001 मोबाइलः 91987							the offer is fair and reasonable and in line with SEBI (SAST) Regulations. However, shareholders are advised to independently evaluate the Offer and make informed dec about whether or not to offer their shares in the Open Offer.
Insal Api	^{टेलीफे} 30 सितंबर 2024		पंजीकृत कार्याल 3353550, 011—	कॉर्पोरेट वः 115, अंसल 66038308, वे	पहचान संख्य भवन, 16, कस्तू बसाइटः WV	r: L45101D रबा गांधी मार्ग, ww.ansalap	L1967PLC0 नई दिल्ली–1100 bi.com; ईमेल	04759 ⁰⁰¹ मोबाइलः 91–987 shareholderse	rvice@ansa	lapi.com					shareholders are advised to independently evaluate the Offer and make informed dec
INSELAPI			पंजीकृत कार्याल 3353550, 011—	कॉर्पोरेट वः 115, अंसल 66038308, वे और अव	पहचान संख्य भवन, 16, कस्तू बसाइटः WV ये के लिए	r: L45101D रबा गांधी मार्ग, ww.ansalap	L1967PLC0 नई दिल्ली–1100 bi.com; ईमेल	04759 ⁰⁰¹ मोबाइलः 91–987 shareholderse	rvice@ansa त्रासांसा		(र	पये लाख में)	12.	Summary of reasons for recommendation	shareholders are advised to independently evaluate the Offer and make informed dec about whether or not to offer their shares in the Open Offer. Further, IDC Members confirm that the Target Company has not received any complaint fro shareholders regarding the Open Offer process, valuation price or valuation method. IDC has evaluated the PA, Corrigendum to PA, DPS and DLOF issued/submitted by JM Fin
गिडिवेLAPI विवरण	30 सितंबर 2024	को सम	पंजीकृत कार्यालग 3353550, 011– ।।प्ता तिमाही माही समाप्त	कॉर्पोरेट वः 115, अंसल 66038308, वे और अवा स्टैंडअलोन	पहचान संख्य भवन, 16, कस्तू बसाइटः WV हो के लिए अवधि समाप्त	ে L45101D खा गांधी मार्ग, ww.ansalap अलेखापर त वर्ष र	L1967PLC0 गई दिल्ली–1100 bi.com; ईमेल रीक्षित वित्ती समाप्त	04759 ¹¹ मोबाइल: 91–987 shareholderse 12 परिणामों व तिमाही समाप	rvice@ansa त्र सारांश समं	ाकित अवधि :	समाप्त	वर्ष समाप्त	12.	Summary of reasons for	shareholders are advised to independently evaluate the Offer and make informed dec about whether or not to offer their shares in the Open Offer. Further, IDC Members confirm that the Target Company has not received any complaint fro shareholders regarding the Open Offer process, valuation price or valuation method. IDC has evaluated the PA, Corrigendum to PA, DPS and DLOF issued/submitted by JM Fin Limited for and on behalf of the Acquirer and PAC and believe that the Offer Price of ₹ (Indian Rupees Eight hundred and sixty four) per fully paid-up Equity Shares ("Offer F offered by the Acquirers being the highest price amongst the selective criteria is in line w
	30 सितंबर 2024	को सम तिग -09-2024 3((अ	पंजीकृत कार्यालय 3353550, 011— ILCT तिमाही माही समाप्त 0-06-2024 30— बलेखापरीबित) (अलेत	कॉर्परिट वः 115, अंसल 66038308, वे और अव र्टंडअलोन 09–2023 30– खामरीबित) (अले	पहचान संख्य मवन, 16, कस्तू बसाइट: W1 ये के लिए अवधि समाप्त 09–2024 30–0 बापरीबित) (अलेप	r: L45101DD रवा गांधी मार्ग, ww.ansalap उत्ते वर्ष र 19-2023 310 बापशीक्षेत) (लेख	L1967PLC0 गई दिल्ली–1100 pi.com; ईमेल रीक्षित वित्ती समाप्त 03–2024 80–05 पराक्षित) (अलेखा	04759 101 मोबाइलः 91–987 121 परिणामो द तिमाही समाप 12224 30–08–202 (अलेखापरीक्षित)	rvice@ansa 21 सारांश सम् 1 4 30-09-2023 1) (अलेखापरीक्षित)	कित अवधि 30–09–2024 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त 30—09—2023 (अलेखापरीक्षित)	वर्ष समाप्त 11-03-2024	12.	Summary of reasons for	shareholders are advised to independently evaluate the Offer and make informed der about whether or not to offer their shares in the Open Offer. Further, IDC Members confirm that the Target Company has not received any complaint fr shareholders regarding the Open Offer process, valuation price or valuation method. IDC has evaluated the PA, Corrigendum to PA, DPS and DLOF issued/submitted by JM Fin Limited for and on behalf of the Acquirer and PAC and believe that the Offer Price of R (Indian Rupees Eight hundred and skdy four) per fully paid-up Equity Shares ("Offer offered by the Acquirers being the highest price amongst the selective criteria is in line w SEBI (SAST) Regulations and prime facie appears to be fair and reasonable based
परिचालन से कुल आय (शुद्ध) कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध	30 सितंबर 2024 30	क्रो समा तिग -09-2024 ३८ (आ 19,540	पंजीकृत कार्याल 3355550, 011– IICI तिमाही माही समाप्त 0–06–2024 अलेखारशैकित, (अले 8,323	कॉर्परिट वः 115, अंसल 66038308, वे ओर अवा रटैंडअलोन 09-2023 30- वायरीक्षित) (अलं 7,958	पहचान संख्य भवन, 16, कस्तू बसाइट: WV दे के लिए अवधि समाप्त 09-2024 30-0 बापरीक्षित) (अलेख 27,863 2	r: L45101Di खा गांधी मार्ग, www.ansalap अलेस्डापर ज वर्ष र १७ – २०२३ ३१–- बापरीक्षित) (लेख २१,२54 4	L1967PLC0 गई दिल्ली–1100 pi.com; ईमेल रोक्षित वित्ती समाप्त 13–2024 30–05 1परीक्षित) (अलेखा 47,894 22	04759 01 मोबाइलः 91–987 shareholderse 12 परिणामी व तिमाही समाप 0–2024 (अलेखापरीक्षित) 2,662 11,664	rvice@ansa ठा सारांस त 4 30-09-2023 1) (अलेखापरीबिल) 10,893	किंत अवधि 30-09-2024 (अलेखापशेक्षित) 34,326	समाप्त 30—09—2023 (अलेखापरीक्षित) 27,056	वर्ष समाप्त 11—03—2024 लेखापरीक्षित) 59,751	12.	Summary of reasons for	shareholders are advised to independently evaluate the Offer and make informed de about whether or not to offer their shares in the Open Offer. Further, IDC Members confirm that the Target Company has not received any complaint fr shareholders regarding the Open Offer process, valuation price or valuation method. IDC has evaluated the PA, Corrigendum to PA, DPS and DLOF issued/submitted by JM Fi Limited for and on behalf of the Acquirer and PAC and believe that the Offer Price of R (Indian Rupees Eight hundred and skty four) per fully paid-up Equity Shares ("Offer offered by the Acquirers being the highest price amongst the selective criteria is in line v SEBI (SAST) Regulations and prime facie appears to be fair and reasonable based independent valuation certificate dated 9 ^a November, 2024 issued by M/s. Ritesh Gupta Company Secretaries (Mr. Ritesh Gupta, Proprietor, FCS: 5200, COP: 3764). The Offer price is higher than the volume-weighted average market price of the
परिचालन से कुल आय (शुद्ध) कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध औरच्या असाधारण मर्दी के बाद) कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध	30 सितंबर 2024 30	को समा तिग -09-2024 अ (आ 19,540 4,263)	पंजीकृत कार्याल 3353550, 011– IICI तिमाही माही समाप्त 0–06–2024 30– अलेखापरीक्षित) (अले 8,323 326	कॉर्परिट वः 115, अंसल 66038308, वे और अव रटैंडअलोन (अले 7,958 (405) (1	पहचान संख्य भवन, 16, कस्तू बसाइट: WV वे के लिए अवधि समाप्त 09–2024 30–0 वापगीक्षेत) (अलेख 27,863 2 (3,937)	r: L45101DD रवा गांधी मार्ग, www.ansalap अल्रेप्टापप ता वर्ष र ३१−२०२३ ३1−-0 ३१−२०२३ ३10 २१,२५४ ४ २१,२५४ ४ (912)	L1967PLC0 गई दिल्ली–1100 pi.com; ईमेल रोशित वित्ती समाप्त 03–2024 30–05 1परीक्षित) (अलेखा 17,894 22 249 (14	04759 01 मोबाइल: 91–987 : shareholderse 12 परिणामों द तिमाही समाप 0–2024 30–06–202 (अलेखापरीक्षि 2,662 11,664 855) (645)	rvice@ansa 21 सारांस न 4 30-09-2023 1) (अलेखापरीक्षिल) 10,893 (1,886)	कित 30-09-2024 (अलेखापरीबित) 34,326 (15,500)	समाप्त 30—09—2023 (अलेखापरीज्ञित) 27,056 (3,084)	वर्ष समाप्त 11-03-2024 लेखापरीक्षित) 59,751 (4,423)	12.	Summary of reasons for	shareholders are advised to independently evaluate the Offer and make informed de about whether or not to offer their shares in the Open Offer. Further, IDC Members confirm that the Target Company has not received any complaint fr shareholders regarding the Open Offer process, valuation price or valuation method. IDC has evaluated the PA, Corrigendum to PA, DPS and DLOF issued/submitted by JM Fi Limited for and on behalf of the Acquirer and PAC and believe that the Offer Price of R (Indian Rupees Eight hundred and sbty four) per fully paid-up Equity Shares ("Offer offered by the Acquirers being the highest price amongst the selective criteria is in line w SEBI (SAST) Regulations and prime facie appears to be fair and reasonable based independent valuation certificate dated 9 ^a November, 2024 issued by M/s. Ritesh Gupta Company Secretaries (Mr. Ritesh Gupta, Proprietor, FCS: 5200, COP: 3764). The Offer price is higher than the volume-weighted average market price of the Company's equity shares for a period of 60 trading days immediately preceding the dat PA as traded on stock exchange with maximum volume of trading [National Stock Exchange]
परिचालन से कुल आय (शुद्ध) कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध औरच्या असाधारण मदों के बाद) कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध औरच्या असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध व	30 মিনের্ব 2024 30	को समा तिग -09-2024 ३८ खापरीसिल) (अ (अ) 4,263) 1,222)	पंजीकृत कार्यालय 3355550, 011– IICI तिमाही माही समापा 0–06–2024 30– अलेखापरीषित) (अले 8,323 326 326	कॉर्परिट वः 115, अंसल 66038308, वे और अव रटैंडअलोन रटैंडअलोन (99–2023 30– वापरीक्षित) (अले 7,958 (405) (7 (405) (7)	पहचान संख्य भवन, 16, कस्तू बसाइट: WV ये के लिए अवधि समाप्त 09–2024 30–0 बापरीबित) (अलेथ 27,863 2 13,937) 20,896)	r: L45101DD रवा गांधी मार्ग, www.ansalap अलेस्टापप 99–2023 31–0 वापशीक्षेत) (लेख 21,254 4 (912) (912)	L1967PLC0 गई दिल्ली–1100 pi.com; ईमेल रोसित दित्ती (अलेखा 17,894 22 249 (14 249 (28	04759 101 मोबाइल: 91–987 is shareholderse 12 परिणामों द तिमाडी समाप 2024 30–08–202 परीक्षिते (अलेखापरीक्षित 2,662 11,664 855) (645) 965) (645)	rvice@ansa त 4 30-09-2023 1) (अलेखापरीक्षित) 10,893 (1,886) (1,886)	किंत अवधि 30–09–2024 (अलेखापरीधित) 34,326 (15,500) (29,610)	समाप्त 30—09—2023 (अलेखापशीक्षत) 27,056 (3,084) (3,084)	वर्ष समाप्त 11-03-2024 लेखापरीक्षित) 59,751 (4,423) (4,423)	12.	Summary of reasons for	shareholders are advised to independently evaluate the Offer and make informed de about whether or not to offer their shares in the Open Offer. Further, IDC Members confirm that the Target Company has not received any complaint fr shareholders regarding the Open Offer process, valuation price or valuation method. IDC has evaluated the PA, Corrigendum to PA, DPS and DLOF issued/submitted by JM Fi Limited for and on behalf of the Acquirer and PAC and believe that the Offer Price of <i>4</i> (Indian Rupees Eight hundred and sbty four) per fully paid-up Equity Shares ("Offer offered by the Acquirers being the highest price amongst the selective criteria is in line v SEBI (SAST) Regulations and prime facie appears to be fair and reasonable based independent valuation certificate dated 9 th November, 2024 issued by M/s. Ritesh Gupta Company Secretaries (Mr. Ritesh Gupta, Proprietor, FCS: 5200, COP: 3764). The Offer price is higher than the volume-weighted average market price of the Company's equity shares for a period of 60 trading days immediately preceding the date PA as traded on stock exchange with maximum volume of trading [National Stock Excha India Limited (NSE)] Le. ₹ 860.82/- per Equity Share. Further, the IDC members draw attention to the closing market price of the Equity Shares
परिचालन से कुल आय (शुद्ध) कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध औरच्या असाधारण मर्दो के बाद) कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध औरच्या असाधारण मर्दो के बाद)	30 सितंबर 2024 30- (अले लाम / (हानि) (असाधारण (14 लाम / (हानि) (असाधारण (24 लाम / (हानि) (असाधारण (24 लाम / (हानि) (असाधारण (24) (24) (24) (24) (24) (24) (24) (24)	को समा तिग -09-2024 अ (आ 19,540 4,263)	पंजीकृत कार्याल 3353550, 011– IICI तिमाही माही समाप्त 0–06–2024 30– अलेखापरीक्षित) (अले 8,323 326	कॉर्परिट वः 115, अंसल 66038308, वे और अव रटैंडअलोन रटैंडअलोन (99–2023 30– वापरीक्षित) (अले 7,958 (405) (7 (405) (7)	पहचान संख्य भवन, 16, कस्तू बसाइट: WV वे के लिए अवधि समाप्त 09–2024 30–0 वापगीक्षेत) (अलेख 27,863 2 (3,937)	r: L45101DD रवा गांधी मार्ग, www.ansalap अल्रेप्टापप ता वर्ष र ३१−२०२३ ३1−० ३१−२०२३ ३1−0 २१,२54 4 (912)	L1967PLC0 गई दिल्ली–1100 pi.com; ईमेल रोसित दित्ती (अलेखा 17,894 22 249 (14 249 (28	04759 01 मोबाइल: 91–987 : shareholderse 12 परिणामों द तिमाही समाप 0–2024 30–06–202 परीक्षित्र) (अलेखापरीक्षि 2,662 11,664 855) (645)	rvice@ansa त 4 30-09-2023 1) (अलेखापरीक्षित) 10,893 (1,886) (1,886)	कित अवचि 30–09–2024 (अलेखापरीवित) 34,326 (15,500) (29,610)	समाप्त 30—09—2023 (अलेखापरीज्ञित) 27,056 (3,084)	वर्ष समाप्त 11-03-2024 लेखापरीक्षित) 59,751 (4,423)	12.	Summary of reasons for	shareholders are advised to independently evaluate the Offer and make informed de about whether or not to offer their shares in the Open Offer. Further, IDC Members confirm that the Target Company has not received any complaint fi shareholders regarding the Open Offer process, valuation price or valuation method. IDC has evaluated the PA, Corrigendum to PA, DPS and DLOF issued/submitted by JM Fi Limited for and on behalf of the Acquirer and PAC and believe that the Offer Price of 3 (Indian Rupees Eight hundred and skty four) per fully paid-up Equity Shares ("Offer offered by the Acquirers being the highest price amongst the selective criteria is in line v SEBI (SAST) Regulations and prime facie appears to be fair and reasonable based independent valuation certificate dated 9 [®] November, 2024 issued by M/s. Ritesh Gupta Company Secretaries (Mr. Ritesh Gupta, Proprietor, FCS: 5200, COP: 3764). The Offer price is higher than the volume-weighted average market price of the Company's equity shares for a period of 60 trading days immediately preceding the dat PA as traded on stock exchange with maximum volume of trading [National Stock Exch- India Limited (NSE)] i.e. ₹ 860.82/- per Equity Share. Further, the IDC members draw attention to the closing market price of the Equity Share Target Company on NSE as on 11 [®] November, 2024 being ₹ 1,055.35/- per Equity Share is higher than the Offer Price. Accordingly, the shareholders of the Target Company are a
परिचालन से कुल आय (शुद्ध) कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध औरच्या असाधारण मदों के बाद) कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध औरच्या असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध द औरच्या असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय ख्क	30 सित्तंबर 2024 30- (अले लाम / (हानि) (असाधारण (14 लाम / (हानि) (असाधारण (14 लाम / (हानि) (असाधारण (24 लाम / (हानि) (असाधारण (25 लाम / (हानि) (असाधारण (26 (कर के बाद) शामिल, (27)	को समा तिग -09-2024 इत्रा खापरीसिल) (अ (19,540 4,263) 1,222)	पंजीकृत कार्यालय 3355550, 011– IICI तिमाही माही समापा 0–06–2024 30– अलेखापरीषित) (अले 8,323 326 326	कॉर्परिट वः 115, अंसल 66038308, वे रोर अदा रटैंडअलोन बागरीबिल) (अले 7,958 (405) (((405) () (438) ()	पहचान संख्य भवन, 16, करतू बसाइट: WV 21 के लिए 33वधि समाप 09-2024 30-0 बापरीक्षित) (अलेख 27,863 2 13,937) 20,896) 20,839)	r. L45101Di रवा गांधी मार्ग, रवा गांधी मार्ग, ww.ansalap उत्त वर्ष र त वर्ष र १९९ प्रदाय र १९९ प्रदाय र १९९ (१९१२) (१९१२) (१९१२) (१९१२) (१९१२) (१९१३)	L1967PLC0 गई दिल्ली–1100 pi.com; ईमेल रोडिंति दिन्ती प्रशिक्षित विन्ती 193–2024 30–06 1परीक्षित (अलेखा 47,894 22 249 (14 249 (28 492 (28 480 (32	04759 101 मोबाइल: 91–987 is shareholderse 12 परिणामों द तिमाडी समाप 2024 30–08–202 परीक्षिते (अलेखापरीक्षित 2,662 11,664 855) (645) 965) (645)	rvice@ansa त 4 30-09-2023 1) (अलेखापरीक्षित) 10,893 (1,886) (1,886)	किंत अवधि 30–09–2024 (अलेखापरीधित) 34,326 (15,500) (29,610)	समाप्त 30—09—2023 (अलेखापशीक्षत) 27,056 (3,084) (3,084)	वर्ष समाप्त 11-03-2024 लेखापरीक्षित) 59,751 (4,423) (4,423)		Summary of reasons for recommendation	shareholders are advised to independently evaluate the Offer and make informed de about whether or not to offer their shares in the Open Offer. Further, IDC Members confirm that the Target Company has not received any complaint fr shareholders regarding the Open Offer process, valuation price or valuation method. IDC has evaluated the PA, Corrigendum to PA, DPS and DLOF issued/submitted by JM Fi Limited for and on behalf of the Acquirer and PAC and believe that the Offer Price of 3 (Indian Rupees Eight hundred and sbty four) per fully paid-up Equity Shares ("Offer offered by the Acquirers being the highest price amongst the selective criteria is in line v SEBI (SAST) Regulations and prime facie appears to be fair and reasonable based independent valuation certificate dated 9 [®] November, 2024 issued by M/s. Ritesh Gupta Company Secretaries (Mr. Ritesh Gupta, Proprietor, FCS: 5200, COP: 3764). The Offer price is higher than the volume-weighted average market price of the Company's equity shares for a period of 60 trading days immediately preceding the date PA as traded on stock exchange with maximum volume of trading [National Stock Excha India Limited (NSE)] i.e. ₹ 860.82/- per Equity Share. Further, the IDC members draw attention to the closing market price of the Equity Share target Company on NSE as on 11 [®] November, 2024 being ₹ 1,055.35/- per Equity Share is higher than the Offer Price. Accordingly, the shareholders of the Target Company are as to independently evaluate the Offer and make informed decisions on whether or not to off shares in the Open Offer.
परिचालन से कुल आय (शुद्ध) कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध औरच्या असाधारण मदों के बाद) कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध औरच्या असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध द औरच्या असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय ख्क लाम / (हानि) और अन्य व्यापक आय	30 सित्तंबर 2024 30	तिग 09-2024 30 19,540 (ब 19,540 (ब 1,222) 1,196) 1,114) (1,114)	पंजीकृत कार्याल 3355550, 011– IICI तिमाही माही समाप्त 0–06–2024 30– अलेखापरीक्षित) (अले 8,323 326 326 326 326 357 379	कॉर्परिट वर्गरारिट वर्गरारारारारारवर्गरारारारारारवर्गरारार	पहचान संख्य भवन, 16, करतू बसाइट: WV 21 के लिए 33वधि समाप 09-2024 30-0 बापरीक्षित) (अलेख 27,863 2 13,937) 20,896) 20,839)	r. L45101Di एवा गांधी मार्ग, www.ansalap त वर्ष र 99–2023 त वर्ष र 99–2023 वर्ष र 99–2023 31–6 (लेख (श्री2) (912) ((912) (912) ((913) 7,870 (L1967PLC0 गई दिल्ली–1100 pi.com; ईमेल रोडिंति दिन्ती प्रशिक्षित विन्ती 193–2024 30–06 1परीक्षित (अलेखा 47,894 22 249 (14 249 (28 492 (28 480 (32	04759 01 मोबाइल: 91–987 : shareholderse 12 परिपामों व तिमाही समाप)–2024 (अलेखापरीक्षित) 2,662 11,664 8,855) (645) 9,65) (645) 377) (458) ,727) (436)	rvice@ansa 21 सारा 4 30-09-2023) (अलेखारगीबिल) 10,893 (1,886) (1,886) (2,901) (2,911)	कित 30-09-2024 (अलेखापरीक्षित) 34,326 (15,500) (29,610) (28,835) (33,163)	समाप्त 30-09-2023 (अलेखापरीक्षित) (3,084) (3,084) (3,084) (3,992) (4,008)	वर्ष समाप्त 11-03-2024 लेखापरीक्षित) 59,751 (4,423) (4,423) (4,647) (4,676)	13.	Summary of reasons for recommendation Disclosure of voting pattern of the IDC Meeting	shareholders are advised to independently evaluate the Offer and make informed der about whether or not to offer their shares in the Open Offer. Further, IDC Members confirm that the Target Company has not received any complaint fr shareholders regarding the Open Offer process, valuation price or valuation method. IDC has evaluated the PA, Corrigendum to PA, DPS and DLOF issued/submitted by JM Fit Limited for and on behalf of the Acquirer and PAC and believe that the Offer Price of <i>3</i> (Indian Rupees Eight hundred and sixty four) per fully paid-up Equity Shares ("Offer offered by the Acquirers being the highest price amongst the selective criteria is in line v SEBI (SAST) Regulations and prime facie appears to be fair and reasonable based independent valuation certificate dated 9 [®] November, 2024 issued by M/s. Ritesh Gupta Company Secretaries (Mr. Ritesh Gupta, Proprietor, FCS: 5200, COP: 3764). The Offer price is higher than the volume-weighted average market price of the Company's equity shares for a period of 60 trading days immediately preceding the date PA as traded on stock exchange with maximum volume of trading [National Stock Exchar India Limited (NSE)] i.e. ₹ 860.82/ per Equity Share. Further, the IDC members draw attention to the closing market price of the Equity Shares Target Company on NSE as on 11 [®] November, 2024 being ₹ 1,055.35/- per Equity Share, is higher than the Offer Price. Accordingly, the shareholders of the Target Company are as to independently evaluate the Offer and make informed decisions on whether or not to off shares in the Open Offer. The Recommendations were unanimously approved by the IDC members present in the N held on 11 [®] November, 2024.
परियालन से कुल आय (शुद्ध) कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध औरच्या असाधारण मदों के बाद) कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध औरच्या असाधारण मदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध औरच्या असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय क्लाम / (ठानि) और अन्य व्यापक आय इक्विटी शेयर पूंजी पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीत (पुनर्मूव्याकन रिजर्व को छोड़कर)	30 सित्तंबर 2024 30	तिग 09-2024 30 19,540 (ब 19,540 (ब 1,222) 1,196) 1,114) (1,114)	पंजीकृत कार्याल 3355550, 011– IICI तिमाही माही समाप्त 0–06–2024 30– अलेखापरीक्षित) (अले 8,323 326 326 326 326 357 379	कॉर्परिट वर्गरारिट वर्गरारारारारारवर्गरारारारारारवर्गरारार	पहचान संख्य भवन, 16, करतू बसाइट: WV 21 के लिए 33वधि समाप 09-2024 30-0 बापरीक्षित) (अलेख 27,863 2 13,937) 20,896) 20,839)	r. L45101Di एवा गांधी मार्ग, www.ansalap त वर्ष र 99–2023 त वर्ष र 99–2023 वर्ष र 99–2023 31–6 (लेख (श्री2) (912) ((912) (912) ((913) 7,870 (L1967PLC0 गई दिल्ली–1100 pi.com; ईगेल रोसित वित्ती अ–2024 30–05 प्रिसित वित्ती (अलेखा 47,894 22 249 (14 249 (28 492 (28 480 (32 7,870 7	04759 01 मोबाइल: 91–987 : shareholderse 12 परिपामों व तिमाही समाप)–2024 (अलेखापरीक्षित) 2,662 11,664 8,855) (645) 9,65) (645) 377) (458) ,727) (436)	rvice@ansa 21 सारा 4 30-09-2023) (अलेखारगीबिल) 10,893 (1,886) (1,886) (2,901) (2,911)	कित 30-09-2024 (अलेखापरीक्षित) 34,326 (15,500) (29,610) (28,835) (33,163)	समाप्त 30-09-2023 (अलेखापरीक्षित) (3,084) (3,084) (3,084) (3,992) (4,008)	वर्ष समाप्त 11-03-2024 लेखापरीक्षित) 59,751 (4,423) (4,423) (4,647) (4,676) 7,870	13.	Summary of reasons for recommendation Disclosure of voting pattern of the IDC Meeting Details of Independent Advisors, if any.	shareholders are advised to independently evaluate the Offer and make Informed dec about whether or not to offer their shares in the Open Offer. Further, IDC Members confirm that the Target Company has not received any complaint for shareholders regarding the Open Offer process, valuation price or valuation method. IDC has evaluated the PA, Corrigendum to PA, DPS and DLOF issued/submitted by JM Fir Limited for and on behalf of the Acquirer and PAC and believe that the Offer Price of ₹ (Indian Rupees Eight hundred and skty four) per fully paid-up Equity Shares (*Offer I offered by the Acquirers being the highest price amongst the selective criteria is in line w SEBI (SAST) Regulations and prime facie appears to be fair and reasonable based independent valuation certificate dated 9 [®] November, 2024 issued by M/s. Ritesh Gupta Company Secretaries (Mr. Ritesh Gupta, Proprietor, FCS: 5200, COP: 3764). The Offer price is higher than the volume-weighted average market price of the Company's equity shares for a period of 60 trading days immediately preceding the date PA as traded on stock exchange with maximum volume of trading [National Stock Excha India Limited (NSE)] i.e. ₹ 860.82/- per Equity Share. Further, the IDC members draw attention to the closing market price of the Equity Shares target Company on NSE as on 11 [®] November, 2024 being ₹ 1,055.35/- per Equity Share is higher than the Offer Price. Accordingly, the shareholders of the Target Company are a to independently evaluate the Offer and make informed decisions on whether or not to offer shares in the Open Offer. The Recommendations were unanimously approved by the IDC members present in the M held on 11 [®] November, 2024. M/s. Ritesh Gupta & Co., Company Secretaries
परिवालन से कुल आय (शुद्ध) कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध औरच्या असाधारण मर्दो के बाद) कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध औरच्या असाधारण मर्दो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध औरच्या असाधारण मर्दो के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय ख्क लाम / (हानि) और अन्य व्यापक आय इकिवटी शेयर पूंजी पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीत (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) प्रति शेयर आय (6/– रुपये प्रत्येक) (30 सित्तंबर 2024 30	तिग 09-2024 30 19,540 (ब 19,540 (ब 1,222) 1,196) 1,114) (1,114)	पंजीकृत कार्याल 3355550, 011– IICI तिमाही माही समाप्त 0–06–2024 30– अलेखापरीक्षित) (अले 8,323 326 326 326 326 357 379	कॉर्परिट मा5, अंसल 66038308, वे रैरेडजलोन स्टैंडजलोन स्टैंडजलोन स्टैंडजलोन (अलं 7,958 (405) (((405) (((438) (((438) (((448) ((7,870	पहचान संख्य भवन, 16, करतू बसाइट: WV अववि समाप्र 09-2024 30-0 बागरीकित) (अलेख 27,863 27,863 23,937) 20,896) 20,839) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <t< td=""><td>r. L45101Di एवा गांधी मार्ग, www.ansalap त वर्ष र 99–2023 त वर्ष र 99–2023 वर्ष र 99–2023 31–6 (लेख (श्री2) (912) ((912) (912) ((913) 7,870 (</td><td>L1967PLC0 गई दिल्ली-1100 pic.com; ईंगेल रोशित दिन्ती समाप्त 133-2024 30-05 (अलेखा 147,894 22 249 (14 249 (28 492 (28 492 (28 492 (28 492 (28 492 (28 492 (28 492 (28) 492 (28</td><td>04759 01 मोबाइल: 91–987 : shareholderse 12 परिपामों व तिमाही समाप)–2024 (अलेखापरीक्षित) 2,662 11,664 8,855) (645) 9,65) (645) 377) (458) ,727) (436)</td><td>rvice@ansa 1 सारांस 4 30-09-2023 10,893 (1,886) (1,886) (2,901) (2,911) 7,870</td><td>कित 30–09–2024 (अलेखापशीक्षित) 34,326 (15,500) (29,610) (28,835) (33,163) 7,870 - (18.65)</td><td>समाप्त 30-09-2023 (अलेखापरीक्षित) (3,084) (3,084) (3,084) (3,992) (4,008)</td><td>वर्ष समाप्त 11-03-2024 लेखापरीक्षित) 59,751 (4,423) (4,423) (4,647) (4,676) 7,870</td><td>13. 14. 15.</td><td>Summary of reasons for recommendation Disclosure of voting pattern of the IDC Meeting Details of Independent Advisors, if any. Any other matter(s) to be highlighted</td><td>shareholders are advised to independently evaluate the Offer and make informed dec about whether or not to offer their shares in the Open Offer. Further, IDC Members confirm that the Target Company has not received any complaint for shareholders regarding the Open Offer process, valuation price or valuation method. IDC has evaluated the PA, Corrigendum to PA, DPS and DLOF issued/submitted by JM Fir Limited for and on behalf of the Acquirer and PAC and believe that the Offer Price of ₹ (Indian Rupees Eight hundred and skty four) per fully paid-up Equity Shares (*Offer I offered by the Acquirers being the highest price amongst the selective criteria is in line w SEBI (SAST) Regulations and prime facie appears to be fair and reasonable based independent valuation certificate dated ⁹ November, 2024 issued by M/s. Ritesh Gupta Company Secretaries (Mr. Ritesh Gupta, Proprietor, FCS: 5200, COP: 3764). The Offer price is higher than the volume-weighted average market price of the Company's equity shares for a period of 60 trading days immediately preceding the date PA as traded on stock exchange with maximum volume of trading [National Stock Excha India Limited (NSC)] i.e. ₹ 860.82/- per Equity Share. Further, the IDC members draw attention to the closing market price of the Equity Shares Target Company on NSE as on 11[®] November, 2024 being ₹ 1,055.35/- per Equity Share, is higher than the Offer Price. Accordingly, the shareholders of the Target Company are as to independently evaluate the Offer and make informed decisions on whether or not to offer shares in the Open Offer. The Recommendations were unanimously approved by the IDC members present in the M held on 11[®] November, 2024. M/s. Ritesh Gupta & Co., Company Secretaries None</td></t<>	r. L45101Di एवा गांधी मार्ग, www.ansalap त वर्ष र 99–2023 त वर्ष र 99–2023 वर्ष र 99–2023 31–6 (लेख (श्री2) (912) ((912) (912) ((913) 7,870 (L1967PLC0 गई दिल्ली-1100 pic.com; ईंगेल रोशित दिन्ती समाप्त 133-2024 30-05 (अलेखा 147,894 22 249 (14 249 (28 492 (28 492 (28 492 (28 492 (28 492 (28 492 (28 492 (28) 492 (28	04759 01 मोबाइल: 91–987 : shareholderse 12 परिपामों व तिमाही समाप)–2024 (अलेखापरीक्षित) 2,662 11,664 8,855) (645) 9,65) (645) 377) (458) ,727) (436)	rvice@ansa 1 सारांस 4 30-09-2023 10,893 (1,886) (1,886) (2,901) (2,911) 7,870	कित 30–09–2024 (अलेखापशीक्षित) 34,326 (15,500) (29,610) (28,835) (33,163) 7,870 - (18.65)	समाप्त 30-09-2023 (अलेखापरीक्षित) (3,084) (3,084) (3,084) (3,992) (4,008)	वर्ष समाप्त 11-03-2024 लेखापरीक्षित) 59,751 (4,423) (4,423) (4,647) (4,676) 7,870	13. 14. 15.	Summary of reasons for recommendation Disclosure of voting pattern of the IDC Meeting Details of Independent Advisors, if any. Any other matter(s) to be highlighted	shareholders are advised to independently evaluate the Offer and make informed dec about whether or not to offer their shares in the Open Offer. Further, IDC Members confirm that the Target Company has not received any complaint for shareholders regarding the Open Offer process, valuation price or valuation method. IDC has evaluated the PA, Corrigendum to PA, DPS and DLOF issued/submitted by JM Fir Limited for and on behalf of the Acquirer and PAC and believe that the Offer Price of ₹ (Indian Rupees Eight hundred and skty four) per fully paid-up Equity Shares (*Offer I offered by the Acquirers being the highest price amongst the selective criteria is in line w SEBI (SAST) Regulations and prime facie appears to be fair and reasonable based independent valuation certificate dated ⁹ November, 2024 issued by M/s. Ritesh Gupta Company Secretaries (Mr. Ritesh Gupta, Proprietor, FCS: 5200, COP: 3764). The Offer price is higher than the volume-weighted average market price of the Company's equity shares for a period of 60 trading days immediately preceding the date PA as traded on stock exchange with maximum volume of trading [National Stock Excha India Limited (NSC)] i.e. ₹ 860.82/- per Equity Share. Further, the IDC members draw attention to the closing market price of the Equity Shares Target Company on NSE as on 11 [®] November, 2024 being ₹ 1,055.35/- per Equity Share, is higher than the Offer Price. Accordingly, the shareholders of the Target Company are as to independently evaluate the Offer and make informed decisions on whether or not to offer shares in the Open Offer. The Recommendations were unanimously approved by the IDC members present in the M held on 11 [®] November, 2024. M/s. Ritesh Gupta & Co., Company Secretaries None
परिचालन से कुल आय (युद्ध) कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध औरच्या असाधारण नदों के बाद) कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध औरच्या असाधारण नदों के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध औरच्या असाधारण नदों के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय इक्विटी शेयर पूंजी पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीत (युनर्मूत्यांकन रिजर्व को छोड़कर) प्रति शेयर आय (5/- रुपये प्रत्येक) (के लिए) 1.मूल 2. तरल 2. उपरोक्त 30 सितंबर 2024 को स रूप का एक अंश है। उक्त स्टैंडअत	30 सित्तंबर 2024 30	तिग 09-2024 3 प्रावापरीक्षित (% 19,540 4 4,263) 1 1,222) 1 1,196) - 11,114) - 7,870 - 13,47) 12.66) (सूचीबद्धता (सूचीबद्धता	पंजीकृत कार्याल 3353550, 011– IICI तिमाही माही समाप्त 0-06-2024 30– अलेखापरीक्षित्र) (अले 8,323 326 326 326 326 327 379 7,870 - 0.23 0.21 दायित्व और प्र	कॉर्परिट 8: 115, अंसल 66038308, वे डोर रावा रटैंडअलोन (99-2023 30- aurttalan) (अलं 7,958 09-2023 30- aurttalan) (अलं 7,958 (405) (((405) (((405) (((438) () (438) () ((438) () ((448) () (7,870 (448) ((((448) () ((((((28) () ((((((28) () ((((((((((((((((((पहचान संख्य भवन, 16, कस्तू बसाइट: WV अववि समाप्द (09-2024 30-0 बापरीक्षित) (अलेख (27,863 2 (3,937) (3,937) 27,863 2 (3,937) 20,896) 20,896) 20,896) (13,24) (11.67) वरयकतारों) विवि	F: L45101Di खा गांधी मार्ग, खा गांधी मार्ग, अफ.ansalap डा.व. डा.व. डा.व. डा.व. डा.व. डा.व. खारशीक्षेत्र) (तेख (912) (912) (912) (913) 7,870 - (21 (0.57) (0.50)	L1967PLC0 गई दिल्ली-1100 pic.com; ईंगेल रोशित दिन्ती अन्यराक्षिल (अलेखा 47,894 22 249 (14 249 (28 492 (28) 492	04759 01 मोबाइल: 91–987 : shareholderse 12 परिपानों द तिमाही समा -2024 30–06–202 (अलेखपरीक्षि 2,662 11,664 8,55) (645) 9,65) (645) 9,65) (645) 3,377) (458) 7,277) (436) 7,870 7,870 8.377) (0.29) 7,277) (0.27) 33 के अनुसार स्व	rvice@ansa 1 सारांस 4 30-09-2023 1 (अलेखापरीक्षित) 10,893 (1,886) (1,886) (2,901) (2,911) 7,870 (1.80) (1.80) (1.59) ॉक एक्सचेंजो	कित 310-09-2024 (अलेखापशीक्षेत) 34,326 (15,500) (29,610) (29,610) (28,835) (33,163) 7,870 - (18.65) (16.44) में दाखिल वि	समाप्त 30-09-2023 (अलेखापशिलित) (3,084) (3,084) (3,084) (3,992) (4,008) 7,870 - (2.50) (2.20) तीय परिणामों	वर्ष समाप्त 11-03-2024 लेखापरीक्षित) 59,751 (4,423) (4,423) (4,647) (4,676) 7,870 (73,093) (2.79) (2.62) के विरत्त	13. 14. 15. To the	Summary of reasons for recommendation Disclosure of voting pattern of the IDC Meeting Details of Independent Advisors, it any. Any other matter(s) to be highlighted best of our knowledge and belief, rial respect, true and correct and no	shareholders are advised to independently evaluate the Offer and make informed dec about whether or not to offer their shares in the Open Offer. Further, IDC Members confirm that the Target Company has not received any complaint for shareholders regarding the Open Offer process, valuation price or valuation method. IDC has evaluated the PA, Corrigendum to PA, DPS and DLOF issued/submitted by JM Fin Limited for and on behalf of the Acquirer and PAC and believe that the Offer Price of ₹ (Indian Rupees Eight hundred and skty four) per fully paid-up Equity Shares ("Offer I offered by the Acquirers being the highest price amongst the selective criteria is in line w SEBI (SAST) Regulations and prime facie appears to be fair and reasonable based independent valuation certificate dated 9 [®] November, 2024 issued by M/s. Ritesh Gupta Company Secretaries (Mr. Ritesh Gupta, Proprietor, FCS: 5200, COP: 3764). The Offer price is higher than the volume-weighted average market price of the Company's equity shares for a period of 60 trading days immediately preceding the date PA as traded on stock exchange with maximum volume of trading [National Stock Excha India Limited (NSE)] i.e. ₹ 660.82/- per Equity Share. Further, the IDC members draw attention to the closing market price of the Equity Shares Target Company on NSE as on 11 [®] November, 2024 being ₹ 1,055.35/- per Equity Share, Is higher than the Offer Price. Accordingly, the shareholders of the Target Company are at to independently evaluate the Offer and make informed decisions on whether or not to offer shares in the Open Offer. The Recommendations were unanimously approved by the IDC members present in the M held on 11 [®] November, 2024. M/s. Ritesh Gupta & Co., Company Secretaries None
परिचालन से कुल आय (शुद्ध) कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध औरच्या असाधारण मर्दो के बाद) कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध औरच्या असाधारण मर्दो के बाद) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध औरच्या असाधारण मर्दो के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय ख्क लाम / (छानि) और अन्य व्यापक आय इक्विटी शेयर पूंजी पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीद (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) प्रति श्वेयर आय (5/- रुपये प्रत्येक) (के लिए) 1.मूल	30 सित्तंबर 2024 30	तिग 09-2024 3 प्रावापरीक्षित (% 19,540 4 4,263) 1 1,222) 1 1,196) - 11,114) - 7,870 - 13,47) 12.66) (सूचीबद्धता (सूचीबद्धता	पंजीकृत कार्याल 3353550, 011– IICI तिमाही माही समाप्त 0-06-2024 30– अलेखापरीक्षित्र) (अले 8,323 326 326 326 326 327 379 7,870 - 0.23 0.21 दायित्व और प्र	कॉर्परिट 8: 115, अंसल 66038308, वे डोर रावा रटैंडअलोन (99-2023 30- aurttalan) (अलं 7,958 09-2023 30- aurttalan) (अलं 7,958 (405) (((405) (((405) (((438) () (438) () ((438) () ((448) () (7,870 (448) ((((448) () ((((((28) () ((((((28) () ((((((((((((((((((पहचान संख्य भवन, 16, कस्तू बसाइट: WV अववि समाप्द (09-2024 30-0 बापरीक्षित) (अलेख (27,863 2 (3,937) (3,937) 27,863 2 (3,937) 20,896) 20,896) 20,896) (13,24) (11.67) वरयकतारों) विवि	F: L45101Di खा गांधी मार्ग, खा गांधी मार्ग, अफ.ansalap डा.व. डा.व. डा.व. डा.व. डा.व. डा.व. खारशीक्षेत्र) (तेख (912) (912) (912) (913) 7,870 - (21 (0.57) (0.50)	L1967PLC0 गई दिल्ली-1100 pic.com; ईंगेल रोशित दिन्ती अन्यराक्षिल (अलेखा 47,894 22 249 (14 249 (28 492 (28) 492	04759 01 मोबाइल: 91–987 : shareholderse 12 परिपानों द तिमाही समा -2024 30–06–202 (अलेखपरीक्षि 2,662 11,664 8,55) (645) 9,65) (645) 9,65) (645) 3,377) (458) 7,277) (436) 7,870 7,870 8.377) (0.29) 7,277) (0.27) 33 के अनुसार स्व	परांटe@ansa रा सारांस 4 30-09-2023) (अलेखापरीक्षित) 10,893 (1,886) (1,886) (2,901) (2,901) (2,911) 7,870 (1.80) (1.80) (1.59) ॉक एक्सचेंजों कंपनी की दे	कित 30-09-2024 (अलेखावरीखित) 34,326 (15,500) (29,610) (28,835) (33,163) 7,870 - (18.65) (16.44) में दाखिल वि बसाइट www	समाप्त 30-09-2023 (अलेखापशिलित) 27,056 (3,084) (3,084) (3,084) (3,992) (4,008) 7,870 - (2.50) (2.20) तीय परिणामों .ansalapi.co देशक मंडल र दुंड इंफ्रास्ट्रवच	वर्ष समाप्त 11-03-2024 लेखापरीक्षित) 59,751 (4,423) (4,423) (4,423) (4,647) (4,676) 7,870 (73,093) (2.79) (2.62) के विस्तृत m पर भी ठी उगेर से	13. 14. 15. To the	Summary of reasons for recommendation Disclosure of voting pattern of the IDC Meeting Details of Independent Advisors, it any. Any other matter(s) to be highlighted best of our knowledge and belief, rial respect, true and correct and no	shareholders are advised to independently evaluate the Offer and make informed dec about whether or not to offer their shares in the Open Offer. Further, IDC Members confirm that the Target Company has not received any complaint for shareholders regarding the Open Offer process, valuation price or valuation method. IDC has evaluated the PA, Corrigendum to PA, DPS and DLOF issued/submitted by JM Fin Limited for and on behalf of the Acquirer and PAC and believe that the Offer Price of ₹ (Indian Rupees Eight hundred and skty four) per fully paid-up Equity Shares ("Offer I offered by the Acquirers being the highest price amongst the selective criteria is in line w SEBI (SAST) Regulations and prime facie appears to be fair and reasonable based independent valuation certificate dated 9 [®] November, 2024 issued by M/s. Ritesh Gupta Company Secretaries (Mr. Ritesh Gupta, Proprietor, FCS: 5200, COP: 3764). The Offer price is higher than the volume-weighted average market price of the Company's equity shares for a period of 60 trading days immediately preceding the date PA as traded on stock exchange with maximum volume of trading [National Stock Excha India Limited (NSE)] i.e. ₹ 660.82/- per Equity Share. Further, the IDC members draw attention to the closing market price of the Equity Shares Target Company on NSE as on 11 [®] November, 2024 being ₹ 1,055.35/- per Equity Share, Is higher than the Offer Price. Accordingly, the shareholders of the Target Company are at to independently evaluate the Offer and make informed decisions on whether or not to offer shares in the Open Offer. The Recommendations were unanimously approved by the IDC members present in the M held on 11 [®] November, 2024. M/s. Ritesh Gupta & Co., Company Secretaries None

ान कार्यालयः 10. बी.टी.एम. सरणी. कोलकाता–700 निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि की सूचना [एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के संबंध में]

6

Finance

ऋण कोड/शाखा/

घारकर्ता(ओ) / सह-उघारकर्ता(ओ

/गारंटर(रों) के नाम

ऋण कोढ संख्या

गैतमपुरा (शाखा),

500000483, विल्ली-

अजीत सिंह (उधारकर्ता). निर्मला (सह—उधारकर्ता १)

उपरोक्त वर्णित उधारकर्ता

दिनौंक : 28 नवंबर 2024

स्थान : दिल्ली

piramal.auction@piramal.com पर ईमेल करें।

यूको बैंक 🚱 UCO BANK

बैंक के शेयरधारक निदेशक श्री प्रमोदा रंजन मिश्रा ने 14 नवंबर 2024 को अपना पद-त्याग दे दिया, जिसके फलस्वरूप शेयरधारक निदेशक का पद रिक्त हो गया है। उक्त रिक्त स्थान को भरने के लिए बैंक ने केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से निदेशक के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है।

संशोधित यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 2003 और अन्य लागू नियमों/कानून/दिशानिर्देशों के अनुसार, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उन शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के प्रयोजन हेतु शुक्रवार, 6 दिसंबर, 2024 को निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि के रूप में तय किया गया है जो केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक के चुनाव में भाग लेने (नामांकित करने, चुनाव लड़ने और मत देने) के अधिकारी होंगे, जो कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसरण में शनिवार, 4 जनवरी 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अदर ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में संचालित किया जाएगा। आगे सचित किया जाता है कि यको बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 2003 के विनियम 65(ii) के अनुसार, नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2024 को शाम 05.00 बजे तक होगी।

चुनाव के लिए संबंधित प्रपत्रों के साथ बैठक की सूचना उचित समय में जारी की जाएगी और बैंक की वेबसाइट के निवेशक अनुभाग पर भी प्रकाशित की जाएगी।

and the second second second second	ସୂମ ଧୁବା ଶବ୍ଦ
तिथि : 26.11.2024	(अश्वनी कुमार)
स्थान : कोलकाता	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
TIMA 2	गणके विश्वस का

कब्जा सूचना

जबकि, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निमांण और सुरक्षाहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और शक्तियों का प्रयोग करते हुए जना स्मॉल फाइनेंस बैक लिमिटेड (पूर्व में जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के अधिकृत अधिकारी के रूप में सुरक्षाहित (प्रवर्तन) नियम 2002 वे नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत उधारकताओं / सह-उधारकताओं को मांग सचना जारी करता है, जिसमें उधारकताओं से संबंधित नामों के सामने उल्लिखित राशि को 60 दिनों के भीतर उक्तन नोटिस की प्राप्ति की तारीख से, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए प्रासंगिक खर्चों, लागतों, शुल्कों आदि के रूप में भविष्य के ब्याज सहित चकाने का आदेश दिया था।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता∕सह-उधारकर्ता∕ गारंटर∕बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/ बकाया देव (रूपये में)		प्लॉट नंबर जी कॉलोनी, प्रीत वि
1.	4512020000385671	 मे. तारा ट्रेडर्स, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके प्रॉप्यइटर श्री महेश चन्द, 2) श्री महेश चन्द (ऋण- धारक), 3) श्रीमती सुचित्रा गौतम (गारंटर), 4) श्री भोपाल सिंह (गारंटर) 	23.09.2024 22.09.2024 को रू. 30,88,265/- (रू. तीस लाख अठासी हजार दो सौ पैंसठ मात्र)	दिनांक 26.11.2024 समयः 01.26 अप प्रतीकात्मक कब्जा	और घर/प्लॉट पूर्व150 फुट चौ उत्तर प्लॉट नंबर संपत्ति/संपत्तियों ईनीलामी की वि
हैं, जन 8 ^{हे} सुरा सह	यार्ड्स । कि, वहां ऊपर उल्लिखित विशेष रूप से ऊपर उल्लि ा स्मॉल फाइनेंस बैंक ति के साथ पठित उक्त अधिनि क्षेत संपत्तियों पर सांकेति –उधारकताओं / गारंटरों रोक्त संपत्तियों / सुरक्षित प	ध नं. 1722 एवं 1723 में निर्मित सम्प उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता / गारंटर / तखित उधारकताओं और सामान्य रू रे सिटेड के अधिकृत अधिकारी ने क त्यम की धारा 13 (4) के तहत प्रदर् तेक कब्जा कर लिया है विशेष / बंधककर्ताओ और सामान्य रूप उ रिसंपत्तियों के साथलेन-देन न करें अ	श्वंधककर्ता देव राशि चुक प से जनता को सूचित वि पर वर्णित तिथियों पर उक्त त शक्तियों का प्रयोग करते रूप से ऊपर उल्लिखित से जनता को सूचित किया गैर उक्त संपत्तियों / सुरथित	ाने में विफल रहें कया जाता है कि नियमों के नियम हुए ऊपर वर्णित ा उधारकताओं/ जाता है कि वे	बोली प्रस्तुत कर आरक्षित मूल्य: 3, * यह मूल्य जिस बयाना पाशि जमा छह सौ वीस रुप बोली वृद्धि राशिः
	त कोर्ट भी केवरेन जना न	गॉल प्रायोग बैंक विगियेत के प	राज्य के आधीत सेगा।		श्री सार्थक
		मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के श् ।		मित्रकारी	बिक्री के विस्तृत
स्थ	४ कोई भी लेनदेन जना २ नः दिल्ली एनसीआर किः 28.11.2024		ाुल्क के अधीन होगा। हस्ता∕- प्राधिकृत अं जना स्मॉल फाइनेंस बैंव		

(भारत सरकार का उपक्रम) (भारत सरकार का उपक्रम) (सीआईएन सं: U64202DL2000G0I107905) /~ (सीआईएन नं. U65921MH1995PLC212675) उस, सी−2, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांड्रंग बुधकर मार्ग, ылта (लाजाङ्गल सा उपस्परधर/200000110/3007) GeM सोली संख्या : GEM/2024/B/5657033 & 5657097, दिनांक : 27.11.2024 उेलटेल/पूर्वी सेन ''रेलटेल/पूर्वी सेन के प्रैमाजी और उन्नेलपुरा अनुमान में 2 जाल की उन्नाए के लिए जॉन्टिक प्रवक्र्या के स्वाउस्ताव के लिए ब्रानुरक्षण या दल की तैनाती और जिरो रमान शती पर एक राल के लिए ब्रानुरा स्वाया जा साकात है' के कार्य हितु पान बोलीदाताओं से ई-बोलियां अमंग्रित कडराही। AXIS FINANC वर्ली, मंबई - 400025 <u>नीलामी—सह—बिक्री सूचना</u> वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए नीलामी बिक्री नोटिस, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) और नियम 9 (1) के प्रावचान के साथ पठित। सबकता है' के कार्य हेतु पात्र बोलीदाताओं से ई-वोलियां अगर्गतित करता है। विरद्गत GoM बोली सुस्ला/ GoM बोली दरतालेज https://www.railfoi.in, https://gorcoure.gov.in sita https://gom.gov.in पर उपलब्ध है। मविषय के उसने परिविष्ट / gilart आदि को जेतरेल वे बसाइट, सीपीपी परिविष्ट और GoM पोर्टल पर अपलोड किया जाएला। बोलीदाताओं को केवल GoM पोर्टल पर अपली बोली जमा करनी होगी। ाम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता/ओं, गारंटर/ओं और बंधककर्ता/ओं को यह सूचना दी जाते कि नीचे बर्णित अबल संपत्तियां, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रमारित है, जिनका भौतिक कब्ज किसस फाइनेंस लिमिटेड, सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उन्हें रुपये की वसूल लिए 30.12.2024 को "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है", और "जो कुछ भी है" और "बिना किसी स े आधार पर''बेचा जाएगा। 2.40.27.071/– (रुपये दो करोड चालीस लाख सत्ताईस हजार इकहत्तर मा 05.11.2024 तक (सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी दिनांक 02.04.2024 की मांग सूचना व तिथि तक की राशि – 2.19.92.170 / – (रुपये दो करोड उन्नीस लाख बानबें) हजार एक सौ सत्तर मा 05.03.2024 तक देय, उधारकर्ता / बंधककर्ताओं / गारंटरों से अंतिम भुगताम / वसूली होने तक, डिफॉ "प्रपत्र सं. आईएनसी-26" 00002020 पांच पर अपरास्ता निक्रमताला गाउँदा 0 जाता नुस्ता न गुराता न गुराता न गुराता न गुराता न गुराता न गर / दंड व्याज और बंधककती), (2) श्री यश गर्न (सह–उधारकती) 3) श्रीमती रजनी गर्ग (इसके बाद सामूहिव रूप से "उधारकर्ता और बंधककती), (2) श्री यश गर्न (सह–उधारकर्ता) 3) श्रीमती रजनी गर्ग (इसके बाद सामूहिव रूप से "उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित)। परिसंपत्तियों का विवरण, आरक्षित मूल्य (आरपी), बयाना राशि जम (कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाघार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन (ईएमडी) और बिक्री का विवरण नीचे दिया गया है केन्दीय सरकार के समक्ष उत्तरी क्षेत्र अनुसुची-। अपने अधिनियम, 2013 की घारा 13 की उपघार (4) और कंपनी (नियमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में अचल सुरक्षित संपत्ति का विवरण 2 (प्लॉट नंबर 2, ब्लॉक—जी), दूसरी मंजिल, प्रीत नगर, सीएचबीएस लिमिटेड <u> इ</u>ार, दिल्ली–110092 आर फार्मेडा हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड की सीमाएं: जिसका पंजीकृत कार्यालय : 2212, टॉवर मैपल पैरामाउंट् सिम्फनी, क्रॉसिंग्स रिपब्लिक, गाजियाबाव पश्चिम15 फुट चौड़ी गली। डी सड़क। 31 दक्षिण – प्लॉट नंबर 1। उत्तर प्रदेश—201001, में स्थित है आर अपरा-201001, न रचल ठयाचिकाकर्ता आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के सन्क्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची—11 ई—नीलामी का विवरण अनुसूची—1 के अनुसार का विवरण तेथि और समय देनांक: 30.12.2024 समयः सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तव त्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साध ने की तिथि और समय दिनांक: 27.12.2024 से पहले: शाम 4:00 बजे 20,86,200/- (तीन करोड़ बीस लाख छियासी) हजार दो सौ रुपये मात्र) रुपये व्यावता था तो नपराक रिकियंत प्रकुप काईल कर एमसीए--21 पॉटेल (www.mcagovin) में शिकायत वर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके दिशेष का कारण चल्लिखित हो के साथ अपनी आपति क्षेत्रीय निरेषक ठलारी क्षेत्र, को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनो के भीतर बो-2 यिंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल वेन्वोरेया राज्य और्जीय केंग्रेसका कॉ किन्दी-40000 के नीचे फ्लैट/संपत्ति/संपत्तियां नहीं बेची जाएंगी (आरपी का 10%): रु. 32,08,620/- (केवल बत्तीस लाख आठ हजा रु. 1,00,000 / - (केवल एक लाख रुपये). क मारिर बा–2 विग, द्विताय तल, पाडेत दानदयाल इंत्योदय स्वन, मींजीओ कॉम्प्सेक्स, मंडे दिल्ती—11003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा मेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवंदक कंपनी को उनके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी मेजेगा। वर्तमान पंजीकृत कार्यालय का पता: 2212, टॉवर मेपल, पैरामाउंट सिर्फनी, क्रॉसिंग्स रिपेब्लिक, मार्जियाबाद, उत्तर प्रदेश–20101, संपर्क व्यक्ति विवरण एवं मोबाइल नम्बरः शर्मा, मोबाइलः 7982992366 एवं श्री स्वप्निल तिवारीः मोबाइलः 9820063208 नियमों और शतौं के लिए कृपया वेबसाइट पर दिए गए लिंक actiontiger.net/EPROC/ और www.axisfinance.in देखें, त (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6)/नियम 9(1) के अंतर्गत वैधानिक 30 दिन का विक्रय नोटिस। (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के अंतर्गत उक्त ऋण के एंटर/ओ और बंधकर्का/ओ को उपयुक्त तिथि को ई–नीलामी बिक्री के आयोजन के कृत्ते की ओर फार्मेडा हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटे रूप में भी माना जा सकता है। (प्राधिकृत अधिकारी), एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड तिथिः : 26.11.2024 स्थानः गाजियाबाद स्थानः मुंबइ मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड पाय XXI के भाग I के अंतर्गेत पंजीकरण के बारे में सचना देने वाला विज्ञापन

जनसता | 28 नवंबर, 2024

पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

फॉयर स्टेशन के सम्मुख, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई– 400070, दूरभाष : 91 22 3802 4000

Piramal सीआईएन : एलठडनाएमएचाठध-पीएलसी032339 पंजीकृत कार्यालय : यूनिट न. ६६१, ६ठवां तत. पीरामल अमिति बिल्डिंग, पीरामल आगस्त्व कॉपरिट पार्क कमानी जंवसन,

ई—नीलामी विक्रय सूचना— आगामी विक्रय

ु नामन अन अपयुध्ध एव अभराग आवागयम 2002 क अतगत, यहा मीचे वॉगेल प्रतिभूत परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने के अनुपलनानुसार, अधोहस्तावरकर्ता द्वारी यहाँ मौ विवर्रणितानुसार अचल संपत्ति, जो कि अधिग्रहण के अंतर्गत है, के 'जैसी हैं जहाँ है आधार, 'जैसी है जो है आधार तथा 'वहाँ जो कुछ भी हैं आधार, जिसके विवरण नीचे दिए गए है, के क्रयार्थ प्रस्ताव निमंत्रित किए जाते हैं :--

संपत्ति पता अंतिम

संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जिनक

विस्तार निम्नानुसार है -- खसरा संख्य

14682/13909/10842/6767 पर मौजा रोहतक, पेट्रोल पंप के सामने जीद बाई पास रोड रोहतक की नगर निगम की सीमाओं के अंदर हरियाणा– 124001 में स्थित है।

ई-नीलामी की तिथि : 17-12-2024 को 11.00 से 01.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित).

ज्वाएकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता हेतु सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत 15 दिवसीय साँविधिक विक्रय सूचना

उपरोक्त वर्णित उधारकर्ता / गारंटर को एतद्वारा सुवित किया जाता है कि वे नीलामी की तिथि से पूर्व आज की तिथि तक प्रोदमूतकृत व्याज के साथ धारा 13(2) की सूचना में अंकितानुसार राशि का पूरा भुगतान कर दें। ऐसा करने में विकल रहने पर संपत्ति नीलाम कर दी जायेगी / उसे बेच दिया जायेगा तथा शेष देय बकाया राशियों, यदि कोई शेष निकलती हों, की वसूली उधारकर्ता / गारंटर से व्याज एवं लागत सहित की जायेगी।

एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड

शाखा कार्यालय : मुखण्ड सं.-6, ब्लॉक ए, सेक्टर- 2, नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201 301

हू--गालामा ।वक्षय पूर्वमा-- आगामा वक्षय पीरामल कंपिटल एण्ड हाउसिंग फाह्ननेंस तिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उधारकर्ता/ओ की ओर बकावा रागि की वसूली हेतु. वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिमूतिक-पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रयत्तंन अधिनियम 2002 के अंतर्गत, यहाँ नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने के अनुपालनानुरारा आग्रेहरताक्षरकर्ता द्वारा य

संपर्क हेतु व्यक्ति : 1) पंकज कश्यप : 9136178689, 2) निक्की कुमार : 9650606340, 3) रोहन सावंत : 9833143013

माँग सूचना तिथि एवं राषि

दिनॉक : 14-03-2018,

ত. 1,63,33,521/-

(रुपये एक करोड

तिरेसव लाख तैंतीस

हजार पांच सौ इक्कीस मात्र)

दिनांक: २६ नवंबर, २०२४

स्थानः गुरुग्राम

हस्ता./

9

बकाया राषि

(25-11-2024)

4,40,00,007 / -

(रुपये चार

करोड़ चालीस लाख सात मात्र)

हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी)

रोहर राशि जम

(बराज) (आरपी

का 10%)

25

22,04,100 / -

(रुपये बाईस

लाख चार हजार एक सौ मात्र)

पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेव

आरबित

मूल्य

2.20.41.000 /

(रुपये दो करोड़

बीस लाख

इकलालिस

हजार मात्र

90

कन्द्राय सरकार के संसंध करेगा आखानयम, 2013 का छाश 13 के अधीन आवेदन कररते का प्रसाव कररती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "उत्तर प्रदेश राज्य में 'पाड्रीय राजावानी क्षेत्र दिल्ली' में स्थानांतरित करने के लिए तारीख मंगलवार 26 नवम्बर, 2024 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के पंजीकृत कार्यलय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फ़ाइल कर

शुम्रांसु चक्रवर्ती (निदेशक) डीआईएन : 08609334

"फॉर्म संख्या यूआरसी–2"

नुंबई, गुरुवार, २८ न	नोव्हेंबर २०२	{ X						नव 🐇 शक्ति marathi.freepressjournal.in
"बॉम्बे स्लम रिडे	व्हलपमेंट व	कॉर्पोरेशन प्र	गयव्हेट लिमिटेड"	शुद्धिपत्र	जाहीर नोटीस			RATAAP SNACKS LIMITED
	n see seen na staar i		वाडी, एम. जी. क्रॉस रोड नंबर	दिनांक १६.११.२०२४ रोजी नवशक्ती या वृत्तपत्रात पष्ठ क्रमांक २२ वर प्रकाशित आयबीसी, २०१६	सर्व संबंधितांना माहिती देण्यात येत आहे की मेसर्स मॅक्रोटेक	1	Yellow	CIN: L15311MP2009PLC021746
९, कांदीवली (पश्चिम) मह	राष्ट्र. येथील "	नेवास आरक्षण	धोरणांतर्गत निवासी विकास"	अंतर्गत ई – लिलाव विक्री सूचनेचा संदर्भ घ्यावा. या	डेव्हलपर्स लिमिटेड द्वारा भायखळा विभागातील C. S. क्रमांक १९१३,			Registered Office: Khasra No. 378/2, Nemawar Road,
नियंत्रण आणि प्रोत्साहन	नियमन २०३४	(नियमन क्रमांव	५ ३३/१०) च्या नियमानुसार)	नोटीसमध्ये नजरचुकीमुळे चुका झाल्या आहेत. तर त्या बरोबर खालील प्रमाणे वाचाव्यात.				Near Makrand House, Palda, Indore – 452020, Madhya Pradesh, India Tel: (+91 731) 2437604/642
			पा झोपडपट्टी पुर्नर्वसन योजना	त्या बराबर खालाल प्रमाण वाचाव्यात. १) ज्या ठिकाणी "जेनेक्स फार्मास्युटिकल्स प्रायव्हेट	मौलाना आझाद रोड, मुंबई – ४००००७ मुंबई, महाराष्ट्र येथे स्थित निवासी व	5		E-mail: info@yellowdiamond.in Website: www.yellowdiamond.in
			व वातावरणीय बदल विभाग,	लिमिटेड" लिहिले गेले आहे त्या ठिकाणी	व्यावसायिक विकासाला पत्र क्रमांक: (SIA/MH/INFRA2/468283/2024)	Rec		of Independent Directors ("IDC") of Prataap Snacks Limited ("Target Company") on the C
।हाराष्ट्र शासन मुंबई, यांच्य	पाकडून पर्यावरण	। विषयक मंजुरी	देण्यात आली आहे. पर्यावरण	"जेनआरएक्स फार्मास्युटिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड" असे वाचावे.	वर २६.११.२०२४ नुसार महाराष्ट्र सरकारच्या राज्य स्तरीय पर्यावरणीय आघात			thum Investment & Infrastructure Limited (the "Acquirer") together with Ms. Mahi Madhus 1 in concert with the Acquirer ("PAC") to the Public Shareholders of the Target Company u
			ance Identification No.	।लामटड अस वाचाव. २) अ. क्र. ६ आणि ७ मध्ये पत्ता "२०४/ए,	मुल्यांकन (SEIAA) समितीने पर्यावरण संमती दिली आहे.			Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011
SIA/MH/INFRA2/460				नवज्योती दर्शन सीएचएस, पुर्णिमा	सदर पर्यावरणीय संमती पत्राची प्रत राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव	1.	Date	11 th November, 2024
			णि जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,	टॉकीजजवळ, मुखाड मार्ग, कल्याण (प) - ४२१३०१,महाराष्ट्र" असे वाचावा.	मूल्यांकन प्राधिकरण वेब पोर्टलवर https://parivesh.nic.in/ या संकेत	2.	Name of the Target Company	Prataap Snacks Limited
अ भारत सरकार यांच्या https:				७२२२२०२, महाराष्ट्र असं याचाया. जाहिरातीमध्ये इतर मजकूर अपरिवर्तनीय राहिल.	स्थळावर उपलब्ध आहे.	3.	Details of the Offer pertaining to Target Company	Open Offer for acquisition of up to 62,98,351 (Sixty Two Lakh Ninety Eight Thousand Th Hundred Fifty One) fully paid-up Equity Shares of face value of ₹ 5/- (Indian Rupees Five) e
CIN: L65190MH2004GO रिटेल रिकव्हरी डिपार्टमेंट, २रा म सिक्युरिटायझेशन ॲण्ड	I148838 जला, मित्तल कोर्ट, रिकन्स्ट्रक्शन ः	ए/बी/सी-विंग, न		जाहीर सूचना सरफैसी ॲक्टच्या १३(२) अन्वये मागणी सूचना इ.: ०२२-६१२७ ९२५३/ ६१२७ ९२८८/ ६१२७ ९३४२ रेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट २००२				(the "Equity Shares") of Prataap Snacks Limited (the "Target Company"), representing 26. of the Voting Share Capital at a price of ₹ 864/- (Indian Rupees Eight Hundred Sixty Four) Offer Share ("Offer Price") from the public Shareholders of the Target Company by Auti Investment & Infrastructure Limited (the "Acquirer") together with Ms. Mahi Madhusudan Ke her capacity as person acting in concert with the Acquirer ("PAC") pursuant to and in complia with Regulations 3(1) and 4 and other applicable Regulations of the SEBI (Substa Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI (SAST) Regulations"). The Public Announcement ("PA") dated 26" September, 2024, Corrigendum to Pr
	। गहाणवटदार यांन			नमुद कर्जदारांना गृहकर्ज/गहाण कर्जाच्या मार्गाने या मंजुरीला अनुसरुन आवश्यक कर्ज आणि तारण	दूष्ध्वनी: ०२२ - २२१६०८९०/२२१६४१९/२२१८४७३८, फॅक्स: २२१५४२२७/२२१८१४४४. कब्जा सूचना (नियम ८(१) पहा) (स्थावर मिळकतीकरिता)			Announcement dated 4 th October, 2024, Detailed Public Statement ("DPS") dated 4 th Octo 2024 and Draft letter of offer ("DLDF") dated 11 th October, 2024 have been issued by Financial Limited on behalf of the Acquirer and the PAC.
				यो मंजुराला अनुसरुन आवश्यक कज आणि तारण नमुद मिळकतीचे नामाधिकार बिलेख जमा करुन	ज्याअर्थी, निम्नस्वाक्षरीकार हे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे प्राधिकृत अधिकारी या नात्याने		N	
गहाणाच्या मार्गाने इतर बाबींग	पह सुरक्षित आहे.				सिक्युरिटायझेशन ॲन्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल ॲसेटर्स् ॲन्ड एन्फोर्समेंट ऑफ	⁴ .	Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer	Acquirer: Authum Investment & Infrastructure Limited PAC: Mahi Madhusudan Kela
				दारांचे खाते हे वेळोवेळी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया स् (एनपीए) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे.	सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ आणि कलम १३(१२) सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स,	5.	Name of the Manager to the	JM Financial Limited
कर्जदारांनी केलेल्या कसुरीच्य त्वरित धकीत आणि देय अस एकत्रित सदर रक्तम आयडीबी व्याजासह आयडीबीआय बँवे	या पार्श्वभूमी वर उ ल्याचे घोषित केले आय बँकेला चुकत ज्ला कर्जदारांद्वारे थ	भायडीबीआय बँवे ने आणि सदर पत्राग नी करण्यासाठी कञ् श्रकीत आणि देय ३	ने तिच्या पत्राद्वारे वित्तीय सहाय्या मध्ये नमुद नुसार वैधानिक दराने वर् र्वदारांना बोलाविणे केलं. रक्कम ही व गहे.	स् (एसपोए) म्हणून वागुकृत करण्यात आल आह. सह एकप्रित व्याज आणि इतर पैसे हे कर्जदारांद्वारे रुली किंवा प्रदानापर्यंत त्यावरील पुढील व्याजासह सुली/प्रदानापर्यंत वैधानिक दराने त्यावरील पुढील बंधित पत्यावर सरफैसी ॲक्टच्या कलम १३(२)	२००२ सहवाचता नियम ३ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून दिनांक १९/१०/२०२३ रोजी मागणी सूचना जारी करून कर्जदार / हमीदार सौ. सुजाता ललितकुमार शारदा, श्री. ललित कुमार प्रेमदास शारदा, श्री. दिलीप कुमार प्रेमदास शारदा, सौ. सोनिया दिलीप कुमार शारदा, यांस सूचनेतील एकूण नमूट रक्षम १८/१०/२०२३ रोजीप्रमाणे रु. ४,४३,४७,६५४.०० (रुपये चार कोटी त्रैचाळीस लाख सत्तेचाळीस हजार सहाशे चौपन्न मात्र) अधिक प्रदानाच्या		offer	7 ^e Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400025, India Tel. No.: + 91 22 6630 3030, Fax No.: + 91 22 6630 3330 Email ID: prataapsnacks.openoffer@jmfl.com, Website: www.jmfl.com Contact Person: Ms. Prachee Dhuri
				बायत पत्त्यावर सरफसा अक्टच्या कलम ५२(२) वर सदर जाहीर सूचना ही सरफैसी रुल्स च्या नियम	दिनांकापर्यंत मासिक आधारे चक्रवाढी पद्धतीने पुढील व्याज आणि अन्य प्रभाराची परतफेड सदर सूचनेच्या तारखेपासन ६० दिवसांत करण्यास सांगितले होते.			SEBI Registration Number: INM000010361
३(१) च्या तरतुदीच्या अनुपा	लनात जारी करण्य	गत येत आहे.		(तुमच्या व्यवसायाचा सर्वसाधारण भाग वगळून)	चुपन प्या गारखनाचून ६० विवास करवार सामगण होते. रकमेची परतफेड करण्यास कर्जदार / हमीदार असमर्थ ठरल्याने, कर्जदार आणि सर्वसामान्य जनतेस याद्रारे सचना देण्यात येते की, निम्म्सवाक्षरीकार्रान त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा	6.	Members of the Committee of Independent Directors	Mr. Chetan Kurnar Mathur (DIN: 00437558) - Chairperson Mrs. Venu Vashista (DIN: 09006358) - Member
हस्तांतर किंवा अन्यथा करु श	ाकत नाही, कसूर	केल्यास तुम्ही सराँ	कैसी ॲक्टच्या कलम २९ अन्वये दे	डनीय गुन्हासाठी पात्र असतील.	वापर करून येथे खाली वर्णन करण्यात आलेल्या मिळकतीचा प्रत्यक्ष कब्जा सदर ॲक्टच्या कलम			Mr. Bharadwaj Thiruvenkatava Venkatraghavan (DIN: 02918495) - Member
				। (८) च्या तरतुदीकडे वेधण्यात येत आहे.	१३(४) सहवाचता नियम ८ अन्वये ह्या २२ नोव्हेंबर, २०२४ रोजी घेतला आहे.	11	IDC Member's relationship with the Target Company (Director,	 All the IDC Members are Non - Executive Independent Director on the Board of Director the Target Company.
				क्रम चुकती करण्याची विनंती करण्यात येत आहे, गत्याही अन्य कायद्यान्वये तसेच सरफैसी ॲक्टच्या	विशेषतः कर्जदार/हमीदार/गहाणदार आणि सर्वसामान्य जनतेस याद्वारे इशारा देण्यात येतो की, सदर		Equity shares owned, any other	 None of the IDC Members hold any equity shares or other securities in the Target Comp
कसूर कल्पास तारण वनका म तरत्दीन्वये तिच्या तारण हित				गत्याहा अन्य कायधान्यय तसच सरफसा अक्टच्या	मिळकतीशी कोणताही व्यवहार करू नये आणि सदर मिळकतीशी करण्यात आलेला कोणताही व्यवहार हा स्टेट बँक ऑफ इंडियाकरीता रकम १८/१०/२०२३ रोजीप्रमाणे रु.		contract / relationship), if any	3. Other than their position as Independent Director of the Target Company, the IDC Merr
अ. कर्जदार/		मागणी सूचनेर्च	+		४,४३,४७,६५४.०० (रुपये चार कोटी त्रैचाळीस लाख सत्तेचाळीस हजार सहाशे चौपन्न			have no other contracts or relationships with the Target Company.
क्र. गहाणवटदाराचे नाव	तारीख	रकम (रु.)	1	मिळकतीचा पत्ता	मात्र) आणि प्रदानाच्या दिनांकापर्यंतचे सांपार्श्विक दराने त्यावरील पुढील व्याज आणि त्यावरील	8.	Trading in the Equity shares/ other securities of the Target	None of the IDC Members have traded in the Equity shares of the Target Company during the:
१ दीक्षा निरज तिवारी/	१२.११.२०२४	-/ ٥ १७७३ ٥ ٤	आचोळे, शालिभद्र नगर, १०० फी	ा, टाईप एम, श्री शालिभद्र रीजेंसी सीएचएसएल, गाव ट रोड, वसंत नगरी, न्यू लिंक रोड, नालासोपारा पूर्व,	इतर प्रभार या रकमेसाठी भाराअधीन राहील. कर्जदारांचे लक्ष तारण मत्तांच्या विमोचनाकरिता उपलब्ध वेळेच्या संदर्भात ॲक्टच्या कलम १३(८)		Company by IDC Members	 a. 12 (Twelve) months period preceding the date of the PA; and b. period from the date of the PA till the date of this recommendation.
दाला मिरण तिवारा			तालुका वसई, जिल्हा पालघर-४०	१२०९, महाराष्ट्र.	च्या तरतुर्दीकडे वेधण्यात येत आहे. स्थावर मिळकतीचे वर्णन :	9.	IDC Member's relationship with	None of the IDC members:
२ विश्वनाथ पांडु पिंगळे/	१२.११.२०२४	2490098/-		नगर सीएचएसएल, आकुलीं रोड, गाव-आकुलीं,	१. फ्लॅट क्र. ४०८, ४था मजला, प्लॅटिनम टॉबर नं.३१, सीटीएस क्र. १९५(भाग), सर्वे क्र.		the acquirer (Director, Equity shares owned, any other	 a. are directors on the board of the Acquirer; b. bade are constructed as a state acquirer;
े भारती पांडु पिंगळे		1.1.55554.0	कांदिवली पूर्व, मुंबई-४००१०१,	0.000 M	१०६ए (भाग), डी. एन. नगर, जे. पी. रोड, अंधेरी पश्चिम, मुंबई उपनगर जिल्हा-४०००५३.		contract / relationship), if any.	 b. holds any equity shares or other securities of the Acquirer; or c. have any contracts/relationship with the Acquirer.
३ काव्या किरण जाधव/	१९.०६.२०२४	२५९३०९१/-	बा/ २०२, २रा मजला, विनय यु सिटी, विरार पश्चिम, पालघर-४०	निक गार्डन, बिल्डिंग क्र.११, हायड पार्क, ग्लोबल १३०३, महाराष्ट्र.	२. फ्लॅट क्र ८०१, ८ वा मजला, प्लॅटिनम लाईफ, बी-विंग, सीटीएस क्र. १९५ (भाग), डी एन नगर, जे पी रोड, अंधेरी पश्चिम, मुंबई उपनगर, जिल्हा - ४०००५३.	10	· Trading in the Equity	None of the IDC Members have traded in any of the Equity shares or other securities of
श्र्ती के खाजणे/				ला, पुनरवसु सृष्टी ए-बिल्डिंग सीएचएसएल सृष्टी	एन नगर, ज पा राड, अधरा पश्चिम, मुंबइ उपनगर, ।जल्हा – ४०००५३. सही/–	11.0	shares/other securities of the	Acquirer.
४ कुमार एस खाजणे	११.११.२०२४	२७४६९३४/-	हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-३, म	गिरा रोड पूर्व, जिल्हा ठाणे-४०११०७, महाराष्ट्र	दिनांक : २२.११.२०२४ प्राधिकृत अधिकारी,		acquirer by IDC Members	
५ दींपक नारायण शिंदे/ स्नेहल गजानन पांचाळ	०८.११.२०२४	२५९४८१५/-		र विंग, ओमकार व्हिला सीएचएसएल, प्लॉट क्र.६, ई नगर, नवी मुंबई, जिल्हा ठाणे-४००७०५, महाराष्ट्र.	ठिकाण : मुंबई स्टेट बँक ऑफ इंडिया	11.	 Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable 	Based on the review of the PA, Corrigendum to PA, DPS and DLOF issued by JM Fina Limited, the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer and PAC, IDC Members believ the offer is fair and reasonable and in line with SEBI (SAST) Regulations. However
६ समीर शरद पाठक/ संदेश शरद पाठक	११.११.२०२४	१२३०३६३२/-	पलॅट क्र.३०१ आणि ३०२, ३रा कोपरखैरणे, जिल्हा ठाणे, नवी मुंब	मजला, रूझान होम्स, प्लॉट क्र.ए/५, सेक्टर १९, ई-४२१३०४, महाराष्ट्र.	दि सह्याद्रि सहकारी बँक लि., मुंबई मुख्य कार्यालयः ४४६, जे.एस.एस. रोड, मुंबई-४०० ००२.			shareholders are advised to independently evaluate the Offer and make informed deci about whether or not to offer their shares in the Open Offer.
0. <u>.</u>	1	-21 	97 	सही/-	्रणाखा कार्यालय येथे ५/७, विजयवाडी, जें.एस.एस. रोड, चिराबाजार शाखा, मंबई - ४०० ००२			Further, IDC Members confirm that the Target Company has not received any complaint from shareholders regarding the Open Offer process, valuation price or valuation method.
दिनांकः २८.११.२०२४ ठिकाणः मुंबई	मराठी भाषांत	ारामध्ये काही संदिग्ध	ग्ता आढळल्यास इंग्रजी जाहिरात ग्राह्य	धरण्यातयावी. प्राधिकृत अधिकारी, आयडीबीआय बँक लि.	मोबाईल क्र. ९०८२५१८४८९/९१८७४६०३६७/८३६९७७९३४९/९२८४७९८५०६ ईमेलः recovery@thesahyadribank.com / sahyadriho@rediffmail.com	12	Summary of reasons for	IDC has evaluated the PA, Corrigendum to PA, DPS and DLOF issued/submitted by JM Fina
	एच	डीएफसी पेन	शन फंड मॅनेजेमेंट लिमि	टेड	सांकेतिक कब्जा सूचना (स्थावर मालमत्तेसाठी)		recommendation	Limited for and on behalf of the Acquirer and PAC and believe that the Offer Price of ₹ 6 (Indian Rupees Eight hundred and sixty four) per fully paid-up Equity Shares ("Offer P
			ी पेन्शन मॅनेजेमेंट कंपनी लिमिटेड		(सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रुल्स, २००२ च्या नियम ८(१) सहवाचित जोडपत्र IV अनुसार)			offered by the Acquirers being the highest price amongst the selective criteria is in line wi SEBI (SAST) Regulations and prime facie appears to be fair and reasonable based of
			020MH2011PLC218824		ज्याअर्थी, निम्नस्वाक्षरीकारांनी दि सह्यादी सहकारी बँक लि., मंबई चे प्राधिकत अधिकारी म्हणन दि			independent valuation certificate dated 9" November, 2024 issued by M/s. Ritesh Gupta a
रजिस्टर्ड आफिस			लो मिल्स कपाउड, एन. एम. जोशी 751 7777, फॅक्स: 022 6751 673	मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई - 400 011.	सिक्युरिटायझेशन औड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल ॲसेंटस औड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ अन्वये आणि सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रुल्स, २००२ च्या नियम ८ (१) सहवाचता कलम १३(२)			Company Secretaries (Mr. Ritesh Gupta, Proprietor, FCS: 5200, COP: 3764).
ŧ			ision.com, वेबसाइट: www.hd		आणि १३(१२) अन्वये प्रदान अधिकारांचा वापर करून दिनांक ११ जुलै, २०२४ रोजी मागणी सूचना जारी करुन			The Offer price is higher than the volume-weighted average market price of the Company's equity shares for a period of 60 trading days immediately preceding the date
			<u> </u>		(जंगमगहाण कर्ज खाते क्र. १००५१८१४०००००३९) कर्जदार श्रीम. शंकरादेवी बाबुराम गुप्ता आणि सह-कर्जदार श्री रविशंकर बाबराम गुप्ता आणि हमीदार यांना सूचनेत नमुद रक्कम (जंगमगहाण कर्ज खाते क्र.			PA as traded on stock exchange with maximum volume of trading [National Stock Excha
		41 d	जनिक सूचना		१००५१८१४०००००३९) ३० जून, २०२४ रोजीस रु. २,५७,३२,७७४/- (रुपये दोन करोड सत्तावण्ण लाख			India Limited (NSE)] i.e. ₹860.82/- per Equity Share.
				ोझेन्स (''एचपीएफएम–पीओपी'') यांच्याशी	बत्तीस हजार सातशे चौन्याहतर मात्र) सदर कर्जदार यांनी सदरह रक्षम चुकती करण्यामध्ये कसूर केलेली आहे, कर्जदार/हमीदार आणि सर्वसाधारण			Further, the IDC members draw attention to the closing market price of the Equity Shares Target Company on NSE as on 11 th November, 2024 being ₹ 1,055.35/- per Equity Share,
				त फंड रेम्युलेटरी ॲण्ड डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी ोंदणी रद्द करण्यासाठी सादर करण्यात आली	सदर कर्णदोर याना सदरहू रक्षम युक्ता करण्यामव्य कदूर कलाला आह, कार्यदार हमादार आणि संवसायारण जनतेस सांगण्यात येते की, निम्नस्वाक्षरीकर्त्यांनी त्याला/तिला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून सदरहू ॲक्टचे			is higher than the Offer Price. Accordingly, the shareholders of the Target Company are a
				श्वन एजंट बनण्याची परवानगी देण्यात आला शन एजंट बनण्याची परवानगी देण्यात आली	कलम १३(४) सहवाचता सदर रूल्सच्या नियम ८ अन्वये दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी याखाली वर्णन केलेल्या मिळकतीचा सांकेतिक कब्जा घेतलेला आहे.			to independently evaluate the Offer and make informed decisions on whether or not to offer shares in the Open Offer.
			रण्यासाठी या पीओपी–एसईचे सि		विशेषत: कर्जदार/हमीदार आणि सर्वसामान्य जनतेला याद्वारे इशारा देण्यात येतो की, उक्त मिळकतीशी व्यवहार	12	Disclosure of voting pattern of	The Recommendations were unanimously approved by the IDC members present in the M
पीओपी-एसईचे न	वि	419533	107 - 205	एचपीएफएम पीओपी सोबत	करु नये आणि सदर मिळकतीशी केलेला कोणताही व्यवहार हा दि सह्याद्री सहकारी बँक लि. , मुंबई यांस रक्रम ३०/०६/२०२४ रोजीस २,५७,३२,७७४/– (रुपये दोन करोड सत्तावण्ण लाख बत्तीस हजार सातशे चौऱ्याहत्तर		the IDC Meeting	held on 11* November, 2024.
				पेन्शन एजंट म्हणून काम करत	मात्र) त्यावर ०१.०७.२०२४ पाूसन जंगमगहाण कर्ज खाते क्र. १००५१८१४०००००३९ च्या त्यावरील	14.		M/s. Ritesh Gupta & Co., Company Secretaries
				आहे का (होय/नाही)	ब्याजाच्या त्याबरील भाराअधीन राहील. स्थावर मिळकतीचे वर्णन	15	Advisors, if any. Any other matter(s) to be	None
व्हॅल्यूप्लस टेक्नॉलॉज राईट होरायझन्स फ	and a specific real sector	(1. The Party of t) }	होय होय	स्थावर मिळकताचे वणन निवासी फ्लॅट क्र. डी-५०४, ५वा मजला, हावरे गांधी इंद्रप्रस्थ रिजन्सी, मोतीलाल नगर क्र.१, गोरेगाव (पश्चिम),		highlighted	
राइट हारायझन्स फ एसएसबीए इनोव्हेशन			16	हाय	मुंबई ४०० १०४ चे ते सर्व भाग आणि विभाग.श्रीमती शंकरादेवी बाबुराम गुप्ता आणि श्री रविशंकर बाबुराम गुप्ता	Tot	the best of our knowledge and belief	, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement.
एसएसबाए इनाव्हशन व्ह्यूआर्क टेक्नॉलॉजी	-			होय होय	यांच्या मालकिचे मोजमापित क्षेत्र समारे ६४६ चौ.फू चटई	mat	terial respect, true and correct and n	ot misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the info
व्धूआक टक्नालाजा क्रिस्टल व्हिजन इन				होय	माजमाापत क्षत्र सुमार ६४६ चा.फू चटइ सीमाबद्धः	requ	uired to be disclosed by the Target C	ompany under the SEBI (SAST) Regulations.
श्री श्री पोर्टफोलिओ				होय	पूर्वेकडे मार्गे : जिना पश्चिमेकडून : लिफ्ट			For and on behalf of Committee of Independent Dir of Prataap Snacks L
श्राब्बान इन्व्हेस्टमेंट्स		1041331032531217		होय	दक्षिणेकडून : फ्लॅंट क्र. ५०३ उत्तरेकडे : फ्लॅंट क्र. ५०२ दिनांक : २६.११.२०२४ सही / –			. 4
असेट्झ प्रीमियर वेल				होय	रिकाणः मुंबई सहा/- ठिकाणः मुंबई (सुमित राजेंद्र चव्हाण)	DIA	ice: Indore	Chetan Kumar M Chairperson of Committee of Independent Dir
जन्म मानवर वर					प्राधिकत अधिकारी		te: 11 th November, 2024	Chairperson of Committee of Independent Dire

होय होय
नाही

होय

होय

त्याचबरोबर याची देखील नोंद घ्यावी की, वर नमूद करण्यात आलेल्या पीओपी–एसई यांचेशी संलम्न असलेल्या एनपीएस सबस्क्रायबर्सच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना निरंतर सेवा मिळतील याची काळजी घेण्यासाठी एचपीएफएम पीओपी द्वारा सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. काही अधिक माहिती हवी असल्यास आणि काही चौकशी करायची असल्यास, कृपया आमच्या देबसाईटवर www.hdfcpension.com येथे नमूद करण्यात आलेल्या तपशिलावर आमच्याशी संपर्क साधू शकता.

करिता एवडीएफसी पेन्शन फंड मॅनेजमेंट लिमिटेड

चॉईस वेल्थ प्रायव्हेट लिमिटेड

ओम वेल्थ प्रायव्हेट लिमिटेड

स्वाक्षरी/-

अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता

दिनांक: २६ नोव्हेंबर, २०२४

ठिकाणः मुंबई

	स. ११०० ते दु. १४००	१६-डिसेंबर-२०२४ सार्थ. ५ पर्यंत रायासाठी तम्ही https://www.iffanehome.com ला भेट डावी आणि मिळकत /तारण मलेकरीता मात्र उपलब्ध लिंक्ट्रारे प्रदान न				
	ासणीची तारीख :	इअर शेवटची नारीख	ईलिलावाची तारीख/वेळ			
	बोली वाढीव रक्कम रु. २०,०००/- (रु. वीस हनार मात्र)	१९४/५ पीएसके क्र. ४६, ग्रामपंचायत मोंडाहिंगणा, ता हिंगणा, नागपूर ४४१११० (बिल्ट अप क्षेत्र ४५० ची.फू.)	२. ९८,३४,९६२८/ - (रु. अठरा लाख पंचेचाळीस हजार सहाशे अडुसष्ट मात्र)	रु. ५५,६००/- (रु. पचावन्न हजार सहाशे मात्र)		
२. सी. प्रेमा अनिल गौर (प्रॉस्पेक्ट क्र. आयएल१०१६१९५५)	रु. १३,३०,१५०/- (रु. तेरा लाख तीस हजार एकशे पन्नास मात्र)	क्षेत्र मोजमापित ३८६ ची.फू., कलस्टर १ विंग आय, कांचनगंगा खा क्र. १२१, १७५, १९४/१ १९४/२, १९४/३ १९४/४,	एकूण धकीत दिनांक १२-नोव्हे-२०२४ रोजीस रु. १८,४५,६६८/-	(रु. पाच लाख छपन्न हजा मात्र) इसारा अनामत रकम (इअ		
श्री.विशाल अनिल गौर	२४-सप्टे-२०२२	मिळकत फ्लॅंट क्र. ३०४, मजला क्र. ३, चटई	१७-फेब्रु-२०२३	ह. ५,५६,०००/-		
आवएल१०११२१०)	बोली वादीव स्क्कम इ. २५,०००/- (रु. पंचवीस हजार मात्र)	टाईप इमारत, सुंदेरवाडी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र भारत ४३१००७ चे सर्व ते भाग आणि विभाग (क्षेत्र मोजमापित ६९९ ची.फू.)	(रु. चौविस लाख सहासष्ट हजार तीनशे एकोणचाळीस मात्र)	रु.१,२०,८००/- (रु. एक लाख वीस हजार आठशे मात्र)		
सातपुते (प्रॉस्पेक्ट क्र.	हजार तीनशे अडतीस मात्र)	क्षेत्र) ५२.६५ ची.मीटर्स (बिल्ट अप क्षेत्र), बी	¥. ?8.66.339/-	इसारा अनामत रक्तम (इअन		
सातपुते २ सौ. शिल्पापुण गोविंद	रु. २०,८८,३३८/- (रु. वीस लाख अठ्याऐंशी	गट क्र. ४६, साईंनाथ किला, फेझ २, विठ्ठल अपार्टमेंट, मोजमापित ४८.१४ चौ.मीटर्स (चटर्ड	एकूण धकीत दिनांक १२-नोव्हे-२०२४ रोजीस	रु. बारा लाख आठ हजार मात्र		
१. श्री. गोविंद पुंडलिक	३०-जुलै-२०२२	मिळकत फ्लॅट क्र. बी-१३, स्टिल्ट ४ था मजला,	१७-ऑगस्ट-२०२३	5, 99,06,000/-		

निविदा प्रपन्न पाठविणे/सादर करणे आवख्यक आहे.

- निबिदा प्रपन्न पाठविणे/सादर करणे आवस्यक आहे. . बोलंदिरांनी फाना बॉली बाढविष्याची रक्कम मध्ये मुमूद रक्कमेंच्या पटीत त्यांचे प्रस्ताव वाढविणे आवस्यक आहे. जर बोली लिलावाच्या समाप्रीच्या वेळेच्या अंतिम ५ मिविदांमचे केल्यास, समाचीत्वा के अर्पोजाप स सिनिटाकरीता विस्तारित होईल. . बास्वी बोलंदिरांनी एओ बानी बोली मुल्य स्विकारल्यापासून २४ तासांत (इंअर समायोजित केल्यानंतर) बोली रक्तमेच्या २५% आणि बोली रकमेच्या उर्वरित ७५% तारण धवकोंनी किंकी नियित्व केल्याच्या तारखेपासून १५ दिसांत वमा करणे आवश्यक आहे. सर्व बमा आणि प्रदान हे प्रदानच्या विहित माध्यमाने करायचे आहे. . खरेदीरराने सेस, प्रयोन्च युद्धांक प्रणुल आणि कोणतीही अन्य वैधानिक थकबाकी किंवा इतर प्रकबाकी जिस की प्रतिका कर, वीब प्रभार, अमीन माण मिळकलौरी संबंधित सर्व कर आणि राराह हत अनुषांगिक खर्ज प्रभार परावंचे आहे. . खरेदीरराने सेस, प्रयोन्च युद्धांक प्रभाण केणलोही अन्य वैधानिक थकबाकी किंवा इतर प्रकबाकी जे की पालिता कर, वीब प्रभार, अमीन आणि मिळकलौरीरी संबंधित सर्व कर आणि राराह हत अनुषांगिक खर्ज प्रभार परावंचे आहे. . खरेदीरराने किंग स्विन्छ स्वत्र प्रक्रिय कर प्राय प्रवेश होते. . खरेदीररानं बिकी स्वतेत्वा व्यवहार/प्रदनकहिता जो प्रवोन्च असेल तो टीडीएस मरावा लागेत आणि आवश्यक्षरूरल एचएफरलकडे टीडीएस प्रमाणम वमा करावे लागेलत. . बोलंदिरांना ई-लिलाव विक्री प्रक्रियेन भाग प्रेष्पसाठी त्यांची बोली साद फरकप्रय्यूगी लिलाव विक्री आणि सिलाक बर्जाच्या तर्यारित्या अन्य . बोलंदिरांना ई-लिलाव विक्री प्रक्रियोग्धा दिक्राण्याओं काली तोल साह करण्यापूर्यी लिताव विक्री आणि स्वित अज्या वर्याकार्या के स्वार्य . बोललितरांन स्वर प्रक्रिया आणि मुंड-प्रिप्लाओं दिकापील कालांक क्रियाल माणकर्मन वाण्याचा सहा देष्या वेरा आहे. . तपशिल, मदत प्रक्रिया आणि ई-लिलावावरील ऑनलाईन प्रशिक्षणाकरिता बोलदिर सेच पुरावदार ई-सेल आयडी : care@infonetome.com, सपोर्ट हेल्प्लाईन क्र. 1800 2672 499 यांना संपर्क कर शकता. 2. मिळकतीचा तपरीति, मिळकतीचे निरिक्षण आणि ऑनलाईन प्रशिक्षण केलित बोलिय कोणल्याही शेककहरीता आवआयायएफरल एचएफएल टोल प्री क्र. १८०० २६७२ ४६७२ ४९२ देथे स. ०९.३० वा. ते १८:co॰ वा. रोजी सोयवार ते युद्धवार रत्याव संपर्क किंचा देपित कोणलट्या कालकण.com वेर ईसिलदुर संपर्क कर शकतात.

- 4. Пरककतीचा वपसील, मिठकतीचे निरिक्षण आणि ऑनलाईन बोली इ. च्या संबंधित कोणच्याही शंकेकतीता आवआयएफरल एवएफरल टोल फ्री. इ. ८०० २६७२ ४९९ वेथे स. ७९.३० वा. ते १८:०० वा. रोजी सोमवार ते शुक्रवार दरम्यान संधर्क किंवा इंगेल: care@iifonehome.com येथे ईमेलद्रार संधर्क कर शकतात. ९. वरील सरदर का वर्षदारां भा एवस करवेलेडी ताए मानमच्चे असलेल्या पारतुरी बस्तु घेवून वाण्यासाठी सूचना चाद्वारे देण्यात वेत आहे. अन्यथा आवआयएफएल-एचएफरल कोणत्याही परिस्थितीत मिठकतीच्या नुकसातीसाठी जवाबदार राहणार नाही. १०. पुढे कर्जदारां भा इंदिस करवा करवा के से स्वरं बस्तु घेवून जाण्यास कसूर केली ता बरील सदर बस्तु कायधानुसार विकच्यात वेतील. ११. वरील विहेत बेठेत वयास्वी बोलीदार/तिलाव खरंदीदाराने कोणत्याही टप्प्याबर प्रदानात कसूर केली ता बरीत सदर बस्तु कायधानुसार विकच्यात वेतील. ११. वरील विहेत बेठेत वयास्वी बोलीदार/तिलाव खरंदीदाराने कोणत्याही टप्प्याबर प्रदानात कसूर केली ता बक्रि रह करण्यात वेईल आणि आगेदर बमा केलेली राक्रम (इअर समाबिदीत) वास करण्यात वेईल आणि फिठकत पुरता विक्रमाठी देप्प्याबर प्रदानात कसूर केली तर बफ्री रह करण्यात वेईल आणि आगेदर बमा केलेली राक्रम (इअर समाबिदीत) वास करण्यात वेईल आणि फिठकत पुरता विक्रमाठी देप्प्याव रहता. १२. एओ यांनी कोणतेही कारण न देता निविदा/तिलावाच्या आदी आणि शती बदलणे किंवा पुढे इकलणे/रह करण्यात हक राख्नू देवला आहे. निविदा/तिलावामध्ये कोणताही वाद झाल्यास आवआयएफएल-एवएफरएच्या एओचा निर्णया ते वेहल.

सरफैसी ॲक्ट, २००२ च्या नियम ९ उप नियम (१) अन्वये १५ दिवसांची विक्री सूचना

कर्डदानंग निविदा/लिलावाच्या तारखेपूर्वी तारखेपर्यंत व्याञ आणि अनुषांगिक खर्चांसह चरील नमृद रक्षम चुकती करण्यामाठी याद्वारे सूचीत करण्यात येत आहे, कसूर केल्यास मिळकतीच्या लिलाव/विक्री करण्यात येईल आणि उर्वीरत थकनाकी काही असल्यास व्याज आणि खर्चांसह वसुल करण्यात येईल. डिकाण: महाराष्ट्र, दिनांक: २८-नोव्हेंबर-२०२४ सही/- प्राधिकृत अधिकारी, आयआयएफएल होम फायनान्स लिमिटेड

SIEMENS

३० सप्टेंबर २०२४ रोजी संपलेल्या वर्षासाठीच्या एकत्रित लेखापरीक्षित आर्थिक निष्कर्षांमधील उतारा

		संपलेली ति	ोमाही	संपलेले	वर्ष
क्र.	तपशील	३० सप्टेंबर	३० सप्टेंबर	३० सप्टेंबर	३० सप्टेंबर
90.	रावदगण	२०२४ (टिप २ पहा)	२०२३ (टिप २ पहा)	२०२४ (लेखापरीक्षित)	२०२३ (लेखापरीक्षित)
۶	प्रचालनापासून एकूण उत्पन्न	& 8, & 8	42,000	२२२,३९७	१९५,५३८
Ş	या कालावधी/वर्षासाठी करपूर्व नफा	११,१५३	७,६२१	३६,३९२	26,390
з	या कालावधी/वर्षासाठी नफा	८,३१२	<i>પ</i> ૭૧૬	20,828	89,589
8	या कालावधी/वर्षासाठी एकूण समग्र उत्पन्न [या कालावधी/वर्षासाठी नफा आणि इतर समग्र उत्पन्न/ (तोटा) (करानंतर) सहित]	८,२०७	<i>પ</i> , પ ૧૬	26,022	१८,३४।
4	समभाग भांडवल	୲ଡ଼ୡୖୖ	ଏ୧२	ଓ୧२	90
Ę	राग्वीव निधी (पुनर्मूल्यांकनासाठीचा राखीव निधी वगळून) मागील वर्षाच्या लेखापरीक्षित ताळेबंदात दाखवल्याप्रमाणे (इतर समभाग)			શ્પર,૮૫૫	१३०,१५
0	प्रत्येक समभागावरील पाप्ती प्रत्येकी २ रूपये (ईपीएस) (रूपयांमध्ये)* - आधारभूत आणि सौम्यीकृत ईपीएस * वर्षाच्या शेवटच्या ईपीएसव्यतिरिक्त वार्षिकीकृत केलेले नाही	23.34	શ્દ.૦૫	66.33	44.09

Date: 11" November, 2024

दि सह्याद्री सहकारी बँक लि., मुंबई

टिपा :

१ कंपनीच्या ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी संपलेल्या तिमाही आणि वर्षासाठीच्या स्वतंत्र आर्थिक निष्कर्षांमधील विशिष्ट बाबी खाली दिलेल्या आहेत:

	संपलेली वि	संपलेले वर्ष		
तपशील	३० सप्टेंबर २०२४ (टिप २ पहा)	३० सप्टेंबर २०२३ (टिप २ पहा)	३० सप्टेंबर २०२४ (लेखापरीक्षित)	३० सप्टेंबर २०२३ (लेखापरीक्षित)
प्रचालनापासून एकूण उत्पन	५९,७८५	५३,८१५	२०४,९६६	१७९,६५ ९
या कालावधी/वर्षासाठी करपूर्व नफा	80,382	୲୰୨୨,ଏ	34,900	રપ, ૪૫૧
या कालावधी/वर्षासाठी करानंतरचा नफा	0,080	4,380	રદ,દપ્ર	\$\$,\$\$3
या कालावधी/वर्षासाठी एकूण समग उत्पन	૭,૬५૨	4,233	२६,२८५	୧७,८୪७

२ ३० सप्टेंबर २०२४ आणि ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी संपलेल्या तिमाहीचे आकडे हे समुहाने नोंडवलेल्या संपूर्ण आर्थिक वर्षाच्या संदर्भात लेखापरीक्षित आकडे आणि नऊ महिन्यांचे अलेखापरीक्षित आकडे यांच्यातील समतोल साधणारे आकडे आहेत.

३ उपरोक्त उतारा हा सेवी (लिस्टिंग ऑक्लिगेशन्म अँड डिरक्लोजर रिक्यायरमेंट्स) रेप्युलेशन्म, २०९५ मधील विनियम ३३ अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजेसकडे साहर केलेल्या तिमाही आणि वर्षांसाटीच्या आर्थिक निष्कर्षाच्या तपःशीलवार नमुन्यातून घेतलेला आहे. तिमाही आणि वर्षांगाटीच्या खतंत्र आणि एकत्रित आर्थिक निष्कर्षांचा संपूर्ण नमुना स्टॉक एक्सचेंजच्या संकेतस्थळांवर (www.bseindia.com आणि www.nseindia.com) आणि कंपनीच्या (www.siemens.co.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

सुनिल माथुर व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सीमेन्स लिमिटेड करिता

नोंदणीकृत कार्यालय: बिलां अरोरा, लेव्हल २१, भूखंड क. १०८०, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई - ४०० ०३० कॉपोरेट ओळख क्रमांक: L28920MH1957PLC010839

दूरध्वनी: +९१ २२ ६२५१ ७०००; फॅक्स: +९१ २२ २४३६ २४०४ ईमेल / संपर्क: Corporate-Secretariat.in@siemens.com / www.siemens.co.in/contact

संकेतस्थळः <u>www.siemens.co.in</u>

ठिकाणः मुंबई

सीमेन्स लिमिटेड

दिनांक: २६ नोव्हेंबर २०२४

अपना इंदौर

रणजीत हनुमान मॉदर, श्रीश्री विद्याधाम मॉदर, बिजासन माता मॉदर, व्यंकटेश मॉदर, अविनाशी अखंडधाम आश्रम की सेवा गतिविधियां भी यहां देखने को मिलेंगी।

शहर में दिखेगा गांव का नजारा

2152 में दिखेगा गांव का नजाश लालवार पेलेस में आने वाले आंगुकों को राठा आण्यांसिक व सांस्कृतिक माडौल के साथ ही प्रायोग परिवेश का माडौल भी देखने को सिलेगा। लालवारा में छोटा सा पारंपरेश बधान-पान से भी हाता लोग रूबरू हो सकेंगे। पांच दिवसीय सेवा मेले में मंच व्यवस्था, भोजन आर्युति, विवृत्त व्यवस्था, स्वच्छता व्यवस्था के लिए अलग-अलग समिहियों का यठन कर लोगों को इसकी जिम्म्येदारंग सोंगी जा चुकी है।

५०० शिक्षकों का एक हजार

शिक्षफ करेंगे वंदन छात्र करेंगे वंदन

लालबाग में 2 दिसंबर तक देखने को मिलेगा पुरातन गौरव का अनोखा समागम नारी शक्ति को समर्पित सेवा मेला आज से

बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्णशास्त्री सेवामेले में | पांच दिवसीय आध्यात्मिक सेवामेला नारी शक्ति को रहेगा लोगों को देंगे उद्बोधन, हजारों युवा जुटेंगे समागम में | समर्पित, अलग–अलग थीम पर आयोजित होंगे कार्यक्रम

पीपुल्स संवाददाता 💿 इंदौर LA. 78796196

भारत को पुरातन संस्कृति, संस्कार, संभ्यता और अध्यास को वर्तमान पोढ़ी से अवगत कराने के उदेग्य से महुनाका स्थित लालवाग परिसर में पांच दिवसीय सेवा पेला 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक आयोंकत किया जा रहा है। इस पांच दिवसीय सेका सेते को नगी पति जीम स्थादि किया गरा है। मेले में आयोंतित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नगी पति जीम स्था की आयोंतित किया जा रहे हैं। जिनमें मातृ-पित् बंदत, कन्या पूजन, गुरुवंदन संहित अव नृत्य नाटिको लामिल हो। पांच दिवसीय सेका मेला आम रित्ते या स्था कि आयोंति किया जा रहे हैं। जिनमें मातृ-पित् बंदत, कन्या पूजन, गुरुवंदन संहित अव नृत्य नाटिको लामिल हे। पांच दिवसीय सेका मेला आम रे। पांच दिवसीय सेका मेला आम हे। पांच दिवसीय सेका मेला आम स्थाप का दिवालयों के काइन्ज़ाओं सर्ग विभिन्न संस्कृतिक कार्यक्रमों की विरोध प्रयत्नेन विनोद अग्रवाल, अय्यक् रायेच्या कि जी से विकासराला का देशन ने कौर यहां के युवा अपने संस्कारों और स्थापना गुरुओं और शिक्षावित्वे कर्मा से जी जिल्हा स्थान इंदि स्थापमा गुरुओं और शिक्षावित्वे के साथ-साथ उत्कृष्ट सामाज की स्थापमा नका एक अनुराम अभियान हिंद् अर्थास्थत सम सामयिक चुनौतियों के समायान का एक अनुराम अभियान हिंद अर्थास्थत साथ ने साउत्य रहित आयान्त्र होत्या प्रयां के वालाग कि 29 स्थायन का राह्र है। इन्को सुरुकात रास्त्र आयान्त्र से तो हु। स्तालवा फेरा स्थाय्त्री, जो विभिन्न मामे से तो ब्रे सारालवाग फेरा स्थाय्त्री, जो विभिन्न मामे से तो ब्रे सारालवाग फेरा स्थाय्त्री, जो विभिन्न मामे से तो ब्रे सारालवाग फेरा स्थाय्त्री, जो विभिन्न मामे से तो ब्रे सारालवाग फेरा स्थाय्त्री



७ लाख वर्गफीट में फैला है सेवा मेला

/ citest dolubic + सेवा मेला प्रबंध प्रमुख जवाहर मंगवानी एवं गरेकरा राठेर ने बातावा कि खालबान में लगने वाला मेला 7 लाख वर्णकेंट में फैला हुआ है। इसमें अलग-अलग भव्य डोम तैया करवार पर हैं। मुख्य डोम 90 डजार वर्गफीट भी बनाव्य गवा है तो वहीं बागेयदर याम पीठाधीरवर पं. धोरेंद्र शास्त्रों के लाख्यान के लिए 2 लाख वर्षगंठिट का हिस्ता नैयार किया जा रहा है। पं. धीरंद्र धास्त्री बुवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। हिन्दु युवा सम्मलन पूरा हाटिक होगा। इसके लिए पूरे परिसर में 10 से अधिक एलईडी स्क्रीन भी लगाई जाएंगे। वहीं 300 कार्यकर्ता एतं 1000 स्वयंसेवक इस कार्यक्रम की व्यवस्था संभालेंगे। वहीं इसके साथ 2400 स्के

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। विशिष्ट अतिथि श्री गुणवंतसिंह कोतारी (अभा संवोजक एवपसपसएफ) रहेंगे। उद्घाटन समारोह के साथ ही हर दिन विशेष आवोजन किए जाएंगे। पूरे परिसर को नगी शक्ति थीन पर सजावा जा रहा है। लालवाग परिसर के मुख्य डार पर भारतमाता, लोकमाता देवे आतित्यावाई के राज्ये को भी दर्शाया बया है।

Ubcil 6 दीवी मेली फीट का विचार-विमर्श ठेंद्र भी वहां बनावा गया है एवं 1500 वर्गफ़ीट में विचाल ऑडिटोरियम बना 8 जिसमें भारत को चंरांगनाओं के गौर्व का प्रदर्शन हाल्यूमंटी के मार्भ्य से किला जाएगा। इंस्वर हिंदुजा एवं सुधाथ पालीवाल ने बताया कि मेले में दो वियेष व मण्ड डोम जीवक एनजीओ अपनी उपरिश्वति दर्ज कराएंगे। इन टालों के माभ्यम से ते अपने प्रवाधिक प्रत्नों के उन-जन तक पहुंचाएंगे। जाति-बियादरी संवोजक मनीष निराम ने बतावा कि सेवा मेले में 50 से ऑफक ममाजों को भी इसमें आमंत्रित किया मया है।

मट-मंदिरों के प्रतिनिधि की भागीदारी

UCPUINCL U प्राताणाव (DI DIOIGLE) प्रचार प्रमुख जवाहर मंगवानी ने बतावा कि नारी शक्ति को संपन्नति सेवा मेले में जहां आमा नावर्षिजें को संपन्नति व संस्कार का समागम रेखने को मिलेगा तो वहीं दूसपी तरफ मठ-मॉदरों की झांकिंगां भी यहां देखने को मिलेगा। देशे के विषय प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर की प्रतिकृति भी यहां सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसी के साथ

हकीमुद्दीन को सैयदना

श्री जीणमाता महोत्सव का पहला साहब ने शेख की पदवी देकर किया सम्मानित

Cup: (IDDI) (Homino) मह्। मानपुर निवासी मुल्ला कि यु इसैन मानपुर क्या देखे हु सैन मानपुर क्या देखे यु है के मानपुर क्या के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वा दिनां बदीमहल्ल मुंबई में विषव दाऊदी बोडरा समाज के धर्मगुरु स्वरत्मा आलिकरद मुरुद्द से सम्मानित किवा। दर्पाछ मिलने पुरुद्द से स्वरना आलिकरद मुरुद्द से स्वरना आलिकर पुरुद स्व स्व विवा (तडश) ने शेख की पदवी प्रदान कर सम्मानित किवा। दर्पाछ मिलने पुरुद्द मोइजअली आरिफ बेटमा, मुत्ला सफत्मा नागदा बाला, मेख जोतरमाई बेटमावाला, मुर्तुजा हैदरा, कुरबु हीन सैफी, होवोछा दीनवाला, मुर्तुजा छैदी।



पीपुल्स संवाददाता 💿 इंदौर

मो.न. 7879619664 ात्मिक सेवा मेला लाल आण्यारिपक सेवा मेरता लालावाग इंदौर में आज से शुरू होने जा रहा है, इस मेले में 1 दिसंबर को मातृशक्ति यागमा होगा, जिसमें 5000 गर्भवती और हजारों प्रत्या शामिल होंगी। दिव्य संतान प्रकल्प के अंतर्गत गर्भावस्था के पहले एवं गर्भावस्था के दौरात तिवम और संस्कार की बिस्तृत जानकारियां ये जापगी। इसी प्रकल्पा के प्रकले प्रांत जापगी। इसी प्रकल्पा जानकारियां दी जाएगी। इसी प्रकल्प में 1 दिसंबर को मातृशक्ति समागम होगा। शहर से लेकर गांव तक 25000 'एक कदम दिव्य संतान को ओर' पुस्तिकाओं का वितरण हो चुका है। इससे समाज में नई चेतना मिल रही है जो सकारात्मक भाव की ओर ले जाएगी।

देपिपार पिपारिपा ये विचार पूर्वी क्षेत्र वावपास के समीप दुधिया में 300 से ज्यादा मादु शकियों के बीच दिव्य संतान प्रकल्प कार्यक्रम के संयोजक पं. योगेंद्र महंत ने व्यक्त किंत्या कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ डॉ. अतिवा सांने में मतुशक्तियों को गर्भावस्था के दौरान पहले महीने से नीवें महीने तक रखने वाले निवम संयम और व्यावहारिक आचार-विचार के बारे में बताया। पं. योगेंद्र महंत ने बतावा कि जा ता ही। इसके अंतर्गत हजारों जी स्थेश और की सम्याप्त कोने पा हा। ही। इसके अंतर्गत वाद-मांवर से और शहर के विभिन्न कॉलोनी मोहल्लों और बारियों को एकप्रीकरण होगा।

का एकत्रीकरण होगा।

नान परिवर्तन सूचना खातत पाहित्यति प्रभुष्टाः। स्व साधान्यत्र के सुवित किंवा जाता है कि पूर्व जो केंद्र जाता स्वरूपता LAXMAN SISOBIA (प्रक्रिय प्रत्यका सिंहासिया) का जिसे प्रत्यका सिंहासिया) का जिसे SISOBIA 3/0 LAXMAN SIMON SISOBIA (प्रक्रिप्त सिंहासिया) का जिस SISOBIA (प्रक्रिप्त से तुक्री हती स्वरू से जाता व प्रवस्ता जा जेवा के दर्भ Pramil Sisodia S/o Laxman Singh Sisodia Nagar, Kanadia Road, Indore (M.P) 452018 नान परिवर्तन सूचना

लाक पार्ट्सका वृद्धि किया जाता है स्व स्वाधारण को सुचित किया जाता है स्व, पूर्व में से जात BASART RAG (प्रदेश राग) था, जिसे मदलकर जैंबे अदला जाल BASART RAG WAEH (प्रदेश राग का प्रदेश होनी जाता है जाता य प्रदेशांका जाते। BASART RAG WAEB ADDRESS Annourna

ADDRESS- Annpurnaa oad, 56-B, Silver Oaks Colony, Indore (M.P.) 452009



तिलक नगर स्थित श्रीचंदा प्रभु मांगलिक भवन में मुनिश्री ने की अमृत वर्षा

जीवन को सार्थक बनाता है हढ़ निश्चय : आचार्य विनम्र सागर जैनधर्मावलंबियों ने मुनिश्री का पाद–प्रक्षालन कर लिया आशीर्वाद

पीपुल्स संयाददाता 🗢 इंदौर

मो.चे. 7879619664 मा.स. ७८७१०६२ दुनिया में जितनी भी जंग जीती गई है, उनके सबके पीछे रह निरचय होना बहुत जरूरी है। इड निरचय होना बहुत जरूरी है। इत निरचय से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। उक्त विचार महामुन्सिज के शिष्ठ मुनिश्री विनग्र सायर महाराज ने तिलक नयर स्थित जर्दप्रभु मार्गालक भवन में आवक-श्रविकाओं को प्रबच्चों की अमुत वर्षा करते हुए व्यक्त किए। मुनिश्री ने कहा कि हमें किसी की

पान आ को कभी भी नहीं तोड़ना चाहए। एक बार किसी की भावना चाहए। एक बार किसी की भावना आहल होती है तो वह जीवन भर नहों जुड़ पाती है। जीवन में विश्वास बैंक वैलंस की तरह होता इसकी मालन को कभी देस नहीं पहुंचाना चाहिए। द्वीदव चेरिठेबला दूस्ट से जुड़े मनोज बाकलीवाल, सॉचन जैन (उद्योगपति), गनीब नावक एवं सतीज हबडेरा ने बताब कि तिलक प्रवचनों का दौर जारी है। मुनिभी विनम्स मापर अलग-अलग विषयों पर प्रवचनों का अमृत वर्षा कर हो

102 (CI2I) अशिशायाद है। तिलक नगर स्थित चंद्राप्र मंगतिकः धवन में प्रतिदिन सुबज 9 से 10 बजे तक प्रतिदेव सुबज 9 से 10 बजे तक प्रतिदेव सुबज है। प्रमंसा के प्रश्वत के प्रधादलक्रियों द्वारा मुनिश्री का पाट-प्रक्षालन कर आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे है। वहां मुनिश्री का पाट-प्रक्षालन कर जन धर्मावर्द्तावेवों को मिल रहा है। बुध्यबर को प्रवत्त कर है है। बुध्यबर को प्रवत्त कर है। बुध्यबर को प्रवत्त कर बन धर्मावर्द्तावेवों को मिल रहा है। बुध्यबर को प्रतित बल्ड 7, सरित बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित थे।

भारत बड़ी संख्या में समाज व अन्यपना को अमृत तथां कर रहे उपस्थित थे। PRATAAP SNACKS LIMITED CIN.LISJ31MF2009FCC021746 Registered Office: Khasra Ro. 378/2, Nemany Near Makrand House, Pade Cin: LLS311MP2009FUC21746 Registered Office: Khas RN. 378/2, Nemmavr Road, Near Makrand House, Paida, Indore – 452020, Madhya Pradesh, India Tel: (94): 721/243706/462 E-mail: Infe@vellowdiamond.in | Website: www.vellowdiamond.in



न्योता खजराना गणेश को दिया भव्य आयोजन २ १ दिसंबर को होगा आयोजित प्रशासनिक व्यवस्था समितियों समितियों सर्वित बिभिन्न समितियें का गठन किया है। 21 दिसंघर को जीज मता महोत्सव की शुरुआत दोपहर 1 बजे से होगी जो रात्रि 9 बजे तक चलेगा। महोत्सव में श्री जीज धाम सीकर की आदिशक्त मा बगर्वदा जोजा पंवरों वाली का दरबार पूर्ली से सजेगा। पीपुल्स संवादवाता 💿 इंदौर

मो.नं. 7879619664

सा.न. 7879619664 क्षो जीणमाता सेवार्थ समिति द्वारा जीणमाता महोत्सव 21 दिसंबर को राजीब गांधी चौराहा स्थित शुभकताराज गाईन.ए.की रोड पर आयोजित किया जाएगा। इस पव्य महोत्सव का प्रथम न्योता खजराता गणेश को अर्पित किया। महोत्सव में श्री जीण माता शाँक मंगल पाठ, सुमयुर मंगल गीत, महेंदी, गजर, चुनडी उत्सव सहित विभिन्न आयोजन होंगे। खजराता गणेश मंदिर में समिति

आयोजन होगे। खजरात गणेश मंदिर में समिति के अध्यक्ष राजेश गर्ग (केंटी), संस्थापक गोपाल मिसल शक्सर बाला ने खजरात गणेश को बंद मंत्रों के बीच पूजन कर जोण माता महोत्यब का प्रबंध आमंत्रण चरणों में अर्थात किया साथ ही माताव्य को सफल बजाते की कामना की। का सफल बनान का कामना का। पाटनीपुरा स्थित जांण माता मदिर में भी जीण माता को निमंत्रण दिया। संस्थापक गोपाल मित्तल शाक्षकरवाला ने बताया कि आयोजन की तैयारिया जोसे पर है इसके लिए व्यवस्था समिति, उत्सव समिति, महाप्रसादी समिति,

पीपुल्स संवाददाता 💿 इंदौर

रहें? इसमें कैसा अहंकार? प्रशस्त भाव से बढि किसी कार्य को करोगे तो आपके अंदर अहंकार

नहीं होगा। मुनिश्री ने कहा कि जब-जब मन मे कर्तित्व, मोक्तूत्व और स्वामित्व का भाव उत्पन्न होता है तो अहंकार आता है। मैं बहुत सुंदर हुं, मैं बहुत बड़ा आदमी हुं, मैं समाज का अध्यक्ष



स्वतंत्रता संवाम सेनानी की

१०७वीं जयंती मनाई जाएगी



हूं, मैं मंत्री हूं, मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं... वह जो क्येराज लगा है, वह मात्र ऊपर की पर्वाख है। कोई छोटा नहीं-कोई बढ़ा नहीं। आज है कल रहे न रहे। वह जो हम कार्त्यानक छीव और विरोषण को वास्त्रीयक छवि माननर जो रहे हैं, वही तो अहंकार है। उन्होंने नेमॉनगर की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज्य मुरुदेव का पढ़ा एक्यर का जिनालय बनाने का आशोवंद दिवा और सफ्ता टूट गया। खैर सपना तो सरना है। मेरे अल्वचेतन मन में गुरुदेव को वह बात आ



(D)(CUI-OD 03) से बाहर I नाठाएं मुनिश्री ने कहा- कार्ल्यानेक छनि को सास्तविक मानन उथा करित भोक्तुल और स्वासिल को लावना को अपने अंदर जगाए रखना अहंकार है। कार्ल्यानेक छाँव से खुद को बाहर निकालिए, तथा अपने अगाकी किसी भी कार्य का एकमज़ तमिस्त माने। संसार के सभी संबंध निमित्त और नैमीतिक हैं। यह जीवन भी पानी के खुलावुले के समान है। कब इम्प्ली हवा निकल जाए, इस्प्ल कोई टिकाना नहीं। एक बंद आंख का सपन है, दूसरा खुली आंख का सपना है। उस सपने को अभना मदा माने जीवन तो उस स काज के समान है जो पुराब को जीवन तो उस स काजा की समान हो जा पुराब का सपना है। तो बह कानज़ शिखर पर पहुंच जाता है और पाप की हवा आते ही वह गटर में पहुंच जाता है।



TRE

छात्र प्रमुख जवादर मंगवानी ने वताया कि सेया मेल के हितीथ दिरास 29 नवंवर को आचार्य वदन कार्यक्रम प्रात 10 वजे से आचार्य तदन कार्यक्रम प्रात 10 वजे से आचार्य तदन कार्यक्रम प्रात 10 वजे से आवेजित किवा जाएगा। तेजी से घटती गुरु-रिष्ण्य परंपरा को एक बार पिर जीवंत करने के लिए. 500 शिक्षकों का वंदन 1000 विवार्थियों डारा गुरुपुजन कर किया जाएगा। महामंत्री विद्या भारती के अवनीण पटनापर जहां तिशिष्ट अतिथि के रूप में प्राप्ति होंगे तो वहीं गुरुख अतिथि राव उदय प्रताप सिंह (स्कूल शिक्षा मंत्री मंस् कार्यक्रम अवीजित किया जाएगा। इसमें दोषहर 3 बजे से सिस, बाहाण, जैन, माहेश्वयरी, अयालल, मराठी, सिर्ध निमाइी, बंगाली, नेपाली, रविदास, सेइव कलचुरी तथा कवीरपंची समाज की महिलाओं द्वारा अनने आराच्य के स्तोउ का पाठ इस मंच से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में जगदगुरु शंकराज्य का

इंदौर, गुरुवार 28 नवंबर 2024 04